

## राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

**गीता महोत्सव को सामाजिक आयोजन बनाने के लिए प्रयास किए जाएं- राज्यपाल**

**अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संगठनों को शामिल करें- मुख्यमंत्री**

**समाचार गेट/ब्यूरो**  
**चंडीगढ़।** हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को राजभवन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की गरिमायुगी उपस्थिति में आगामी 28 नवंबर से 15 दिसंबर, 2024 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस विशाल

आध्यात्मिक वार्षिक आयोजन के लिए ओडिशा भागीदार राज्य है, जबकि संयुक्त गणराज्य तंजानिया भागीदार देश है। श्री दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को सामाजिक आयोजन बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक सामाजिक आयोजन बन जाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार एक सहायक भूमिका निभाए और महोत्सव से जुड़ी हर चीज का प्रबंधन समाज के विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश भर से प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। भारत के दक्षिणी राज्यों को इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रख्यात धार्मिक हस्तियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम



उपयोग करके हम इस आयोजन की पहुंच को और बढ़ा सकते हैं। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त करके कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (केडीबी) के संरचनात्मक दायरे को व्यापक बनाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महिलाओं को भी केडीबी का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। अपने समान संबोधन में श्री दत्तात्रेय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में महिलाओं के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे समाज के वंचित वर्गों के अधिक से अधिक बच्चों को गीता पाठ के लिए प्रेरित करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में अधिक से अधिक हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों जैसे

सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों को इसमें सकरात्मक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि ऑनलाइन गीता क्विज और अन्य शीर्ष प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान शारीरिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में प्रवासी भारतीयों और

उद्योगपतियों को शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। स्वच्छता अभियान और सौंदर्यीकरण कार्यों का आयोजन लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास पूरी तरह से साफ-सफाई सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योतिषर में पेड़ों को रंग-विरंगी लाइटों से सजाया जाना चाहिए ताकि मनोरम दृश्य बनाया जा सके। विश्व भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करने वाले इस विशाल वार्षिक आयोजन की तैयारियों पर

संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में समाज को प्रमुख हितधारक बनाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आस-पास के गांवों से अधिक से अधिक लोग दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लें। उन्होंने केडीबी को निर्देश देते हुए कहा कि महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र प्रतियोगिता आयोजित करने की संभावना तलाशने के लिए हर संभव स्थान की तलाश की जानी चाहिए, जहां लोग महोत्सव में योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री ने वाहनों को पार्किंग, महोत्सव के दौरान जिला मुख्यालय से कुरुक्षेत्र तक विशेष बसें चलाने, मेहमानों और आगंतुकों की सुविधा के लिए अस्थायी कूड़ेदान, शौचालय और साइनेज लगाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया।

बैठक में मुख्य सचिव श्री विवेक जोशी, गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री बी.बी. भारती ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री श्री सैनी को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए किए गए प्रचार-प्रसार उपायों के बारे में जानकारी दी। बैठक में पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती कला रामचंद्रन, राज्यपाल के सचिव श्री अतुल द्विवेदी, कुरुक्षेत्र की उपायुक्त श्रीमती नेहा सिंह, राज्यपाल के आईटी सलाहकार श्री बी.ए. भानु शंकर, केडीबी के सीईओ श्री पंकज सेतिया, मुख्यमंत्री हरियाणा के सलाहकार श्री पवन चौधरी, विदेश सहयोग विभाग और केडीबी के सदस्य शामिल रहे। केडीबी के मानद सचिव श्री उषेंद्र सिंघल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2024 पर पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया।

## डीएससी समाज को खूब भा रहा 'आरक्षण में वर्गीकरण' का फैसला

# भाजपा का एक और बड़ा वोट बैंक तैयार, विस चुनाव में मोड़ दिया था हवा का रुख

**समाचार गेट/ब्यूरो**

**जौड़।** भाजपा के ऐतिहासिक फैसलों में एक 'आरक्षण में वर्गीकरण' के बाद डीएससी समाज पूरे जोश में है। विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की राजनीति में नया अध्याय जोड़ने वाले डीएससी समाज (वंचित अनुसूचित जाति) को 'आरक्षण में वर्गीकरण' खूब भा रहा है। अब इस समाज के युवाओं के मन से नौकरों और रोजगार की चिंता खत्म हुई है। 'आरक्षण में वर्गीकरण' का डायरेक्ट लाभ डीएससी समाज को मिल रहा है और इस समाज के लोग भाजपा को इसका श्रेय देने से भी कतराई पीछे नहीं हट रहे। यह वही डीएससी समाज है, जिसने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अनामक भाजपा के पक्ष में टर्निंग प्वाइंट बना दिया था।



भाजपा के पक्ष में माहौल बनने का कारण भी वाजिव है, दरअसल बड़े आंदोलनों के बाद हरियाणा में अक्टूबर 1994 में आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू किया गया, लेकिन डीएससी समाज को कांग्रेस सरकार ने 2005 में आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ देना बंद कर दिया था। इससे आहत समाज लगातार संघर्ष करता रहा, मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2024 में आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला समाज के हक में किया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षण भर भी देर नहीं लगाई और पहली कलम से आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला लागू कर दिया।

फैसला लागू होने और इस बड़े समाज द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव का रुख बदलने से साफ हो गया है कि भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक डीएससी समाज और मजबूती से भाजपा के लिए तैयार हो गया है। डीएससी समाज भाजपा के लिए भविष्य में भी ऐसे ही सीना तानकर खड़ा रहेगा इसका उदाहरण 24 नवंबर को जौड़ में नजर आएगा। 24 नवंबर को भगवान वाल्मीकि की राज्यस्तरीय जयंती समारोह के मौके पर जौड़ के एकलव्य स्टेडियम में डीएससी समाज द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी का मान-सम्मान किया जाएगा।

**राजनीतिक मायने**  
भगवान वाल्मीकि की राज्यस्तरीय जयंती समारोह हरियाणा की राजनीति में इतिहास लिखेगा। दशकों तक अपने हकों से वंचित रहे डीएससी समाज अब खुद के लिए भाजपा को सबसे बेहतर मान रहा है।

वरिष्ठ नेताओं का एक बयान तक नहीं आया। आने वाले समय में भी डीएससी समाज भाजपा की ढाल बनकर काम करेगा। ऐतिहासिक होगा समारोह, लाखों लागू आएंगे

इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए अपनी पूरी ताकत जमीन पर लगाने वाले हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि 24 नवंबर जौड़ के एकलव्य मैदान में प्रदेश सरकार की तरफ से भगवान वाल्मीकि की राज्यस्तरीय जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व पर समाज के लाखों लोग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मान-सम्मान करेंगे। प्रदेश की 90 विधानसभाओं से पूरे जोश और उत्साह के साथ देखने को मिल रहा है। लाखों लोग जौड़ के ऐतिहासिक एकलव्य मैदान में पहुंचेंगे।

## कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने समर्थकों संग देखी 'द साबरमती रिपोर्ट'



**समाचार गेट/संजय शर्मा**

**फरीदाबाद।** हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और फरीदाबाद से विधायक श्री विपुल गोयल ने कल सिल्वर सिटी सिनेमा में अपने समर्थकों के साथ गोधरा कांड पर आधारित फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' देखी। विपुल गोयल ने अपने समर्थकों के लिए विशेष रूप से टिकट की व्यवस्था की और फिल्म देखने का अनुरोध किया। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने नागरिकों और राष्ट्रवादियों से आग्रह किया कि वे इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की वास्तविकता को जानें और समझें।

**गोधरा के सत्य को सभी से देखने की अपील**

छुपाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा, यह फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह उन और सत्य घटनाओं को उजागर करती है, जो लंबे समय से आम जनता के सामने नहीं आने दी गईं। मोदी जी की छवि को राजनीति के लिए निशाना बनाया गया विपुल गोयल ने गुजरात दंगों के संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अदालत से क्लीन चिट मिलने के बावजूद, बार-बार राजनीतिक षड्यंत्रों में घसीटा गया। उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा, वाइब्रेंट गुजरात का निर्माण और अब भारत का विकसित भारत बनने का सफर, मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। लेकिन उनकी इस सफलता को बदनाम करने के लिए साजिशें रची गईं।

**फिल्म के व्यापक संदेश को पहुंचाने की अपील**

गोयल ने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट झूठे विमर्श और तथ्यों को दबाने की वर्षों पुरानी योजनाओं को खत्म कर देती है। उन्होंने इसे पीड़ितों के साथ हुए अन्याय और सच्चाई को जताने के लिए हर जागरूक नागरिक के लिए अनिवार्य बताया।

## महाराष्ट्र में हुई भाजपा की प्रचंड जीत पर कांग्रेस फिर से ईवीएम पर अलाप कर रही है : पंडित मोहन लाल बड़ौली

**महाराष्ट्र में हुई एनडीए की प्रचंड जीत पीएम मोदी की नीतियों की जीत है : बड़ौली**

**भारत कांग्रेस मुक्त भारत होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है : बड़ौली**

**भाजपा की जीत से भाजपा में जश्न का माहौल, प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में कार्यकर्ता ढोल की थाप पर जमकर नाचे**



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईवीएम को खराब बताया कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस के पास ना सोच है और ना ही कोई नीति है। मीडिया की सुविधियों में रहने के लिए कांग्रेस के लोग उलटी-सीधी बयान बाजी करते हैं। श्री बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, देश की जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करके देश को बदनाम करने का पाप कांग्रेस ने किया। गरीबों के हक को भ्रष्टाचार के रास्ते से हड़पने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस की सोच और नीतियों का ही परिणाम है कि देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। आम आदमी पार्टी को निशाने पर

लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति दिल्ली और पंजाब की जनता देख रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने माहौल को खराब किया है। जेल से सरकार चलाने का अनुभव भी आम आदमी पार्टी के पास है। उन्होंने एक अन्य सवाल पर बोले हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने किस तरह से 100-100 गज के प्लॉट के झूठे फार्म भरवाए, खटाखट 8500 रुपये देने और आरक्षण व संविधान को लेकर लोगों को भ्रमित किया। जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है।

जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेगी। नायब सरकार ने 100 दिन के काम तय किए हैं। तीसरी बार सरकार बनते ही सीएम नायब सिंह सैनी ने 24000 युवाओं को नौकरियां दी, आरक्षण में वर्गीकरण के सर्वोच्च न्याय के आदेश को लागू किया। श्री बड़ौली ने कहा कि भाजपा हर काम योजनाबद्ध होकर करती है। किसान, महिलाएं, युवा, व्यापारी, कर्मचारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखना ही हमारी सरकार की खूबसूरती है। पराली प्रबंधन पर बोले हुए श्री बड़ौली ने कहा कि हरियाणा सरकार एक एकड़ की पराली पर 7 से 10 हजार रुपये दे रही है। हरियाणा का किसान पर्यावरण प्रेमी और जागरूक

**विस्तारकों की कार्यशाला का आयोजन**

संगठन पर्व सदस्यता अभियान के निमित्त भाजपा प्रदेश कार्यालय रोहतक में युवा विस्तारक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में मुख्य अतिथि भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फर्नांदनाथ शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष अजय बंसल, जिला कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने सदस्यता अभियान की पूर्ण गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता घर-घर जाएं और लोगों को पार्टी से जोड़ें। वहीं संगठन मंत्री फर्नांदनाथ शर्मा ने भी युवाओं को अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का मूलमंत्र बताया।

हैं। सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए पानीपत में एथानॉल का प्लांट लगाया है, लेकिन कांग्रेस के नेता आरोप लगाने से नहीं चूकते। भाजपा के सदस्यता अभियान पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही 50 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, जिला अध्यक्ष रणबीर सिंह ढाका, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय बंसल, जिला महामंत्री सुखबिर चंदोलिया, जिला मीडिया प्रभारी तरुण शन्नी शर्मा, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सुपन, हरिओम मित्तल, वजीर खोखर, दीपू नागपाल, अंकित शर्मा पंकज शर्मा, आशा शर्मा अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि युवा विस्तारक सभी 22 जिलों और 313 मंडलों में जाएं और लोगों को भाजपा के प्रति प्रेरित कर जोड़ने का काम करें।

**अपनी शादी, जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ की फोटो हमें भेजें। नोट: मेल में नाम, पता और मोबाईल नंबर जरूर लिखें।**  
samachargate@gmail.com

**प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक टोल फ्री नम्बरों की सूची**

सीएम शिकायत पोर्टल	181
विद्युत सेवा	1912
पशु सेवा	1962
पुलिस सेवा	112, 100
अग्नि सेवा	101
एमबुलेंस सेवा	102
यातायात पुलिस	103
आपदा प्रबंधन	108
चाइल्ड लाइन	1098
रेलवे पृष्ठताड़	139
भ्रष्टाचार विरोधी	1031
रेल दुर्घटना	1072
सड़क दुर्घटना	1073
सी एम सहायता लाइन	1076
क्राइम सटायर	1090
महिला सहायता लाइन	1091
पृथ्वी भूकम्प	1092
बाल शोषण सहायता	1098
किसान काल सेंटर	1551
नागरिक काल सेंटर	155300
ब्लड बैंक	948004444







## महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की शानदार जीत पर विधायक ने बांटी मिठाई

महाराष्ट्र में जनता ने दिखाया विपक्ष को आईना : धनेश अदलखवा



**समाचार गेट/संजय शर्मा**  
फरीदाबाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव व उपचुनाव में भाजपा गठबंधन की शानदार जीत पर बड़खल विधायक धनेश अदलखवा के 1 नंबर स्थित कार्यालय

पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। इस मौके पर भाजपा जिनदाबाद, नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद के नारो से पूरा वातावरण भाजपायम हो गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर इस जीत

की बधाई दी। इस मौके पर विधायक धनेश अदलखवा ने मिठाई बांटे हुए कहा कि इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व मागदर्शन को जाता है। महाराष्ट्र की जनता धन्यवाद की

पात्र है जिन्होंने विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाकर दोबारा भाजपा को गले से लगाया है ताकि देश के साथ साथ महाराष्ट्र भी तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक ही नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जिसे जनता अच्छी तरह जान चुकी है तभी तो उन्होंने उन विपक्षी पार्टियों के मुंह पर तमाचा मारा है जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में झूठे वायदे करके उनके वोट पर डाका डाला था। धनेश अदलखवा ने कहा कि देश को तोड़ने, वाली ताकतों को अब समझ में आ जाना चाहिए कि जनता जागरूक हो चुकी है वो किसी बहकावे में नहीं आएगी। वैसे सुबह जैसे ही परिणाम भाजपा के गठबंधन के पक्ष में आने लगे थे लोग विधायक धनेश अदलखवा के निवास पर उन्हें बधाई देने पहुंच गए थे।

## अल्फा अभिराशी गुप के डायरेक्टर आशीष जैन राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेचन्द बैरवा से मिले

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव व उपचुनाव में बंपर जीत पर बधाई दी

**समाचार गेट/संजय शर्मा**  
फरीदाबाद। फरीदाबाद शहर के प्रसिद्ध युवा उद्योगपति व अल्फा अभिराशी गुप के डायरेक्टर आशीष जैन राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा से उनके जयपुर आवास में मिले और उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव व राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव की जीत की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आशीष जैन ने कहा कि इस चुनाव नतीजों के पूं तो कई संदेश है लेकिन एक बात शीशे की तरह स्पष्ट है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विश्वसनीयता का मुकाबला किसी भी दूसरी चीज से नहीं किया जा सकता है। इन राज्यों में हुई बंपर

जीत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों, और कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की मोहर है। नरेन्द्र मोदी देश के लोगों के दिलों पर राज करते हैं तभी तो लोगों ने दिल खोलकर उनके नाम पर वोट डाला।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर देश और प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं। आशीष जैन ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार भी जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतर रही है।



## गरिमामयी ढंग से मंगलवार को मनाया जाएगा संविधान दिवस : विक्रम सिंह

डीसी ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम मानव रचना विश्वविद्यालय में होगा आयोजित

**समाचार गेट/कृष्णा शर्मा**  
फरीदाबाद। डीसी विक्रम सिंह ने कहा देश के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देश के हर नागरिक को हो इसके लिए संविधान दिवस के अंतर्गत जिला फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिला मुख्यालय पर स्थित मानव रचना विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार, 26 नवंबर को संविधान दिवस थीम के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डीसी ने संबोधित अधिकारियों को संविधान दिवस के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इससे पहले हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने प्रदेश भर के उपयुक्त व विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के



माध्यम से बातचीत करते हुए रूपरेखा साझा की। डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि इसी दिन देश ने संविधान को स्वीकार किया था जिसके चलते सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को फैसला लेते हुए हर साल 26 नवंबर

गौरतलब है कि भारतीय संविधान कई सिद्धांतों और दृष्टांतों को समेटे है, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश, कानून आदि तय किए गए हैं। डीसी ने कहा कि सामाजिक सहभागिता के साथ मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन करते हुए भारत सरकार की ओर से दी गई वेबसाइट पर फोटो अपलोड भी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए कार्यक्रम का सफलता पूर्वक आयोजन करवाना है। इन अवसर पर नगर निगम आयुक्त स्वर्णल रविन्द्र पाटिल, जिला परिषद सीईओ सतबीर मान, एसडीएम फरीदाबाद शिखा, एसडीएम बडखल अमित मान, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज व सीटीएम अंकित कुमार मौजूद रहे।

## वाहन चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

**समाचार गेट/सुमित गोयल**  
फरीदाबाद। वाहन चोरी करने के मामले में अपराध शाखा उंचा गांव की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि भरत कुमार निवासी एसी नगर नीलम बाटा मार्ग नजदीक अंकित प्लाजा फरीदाबाद ने अपनी एक लिखित शिकायत पुलिस चौकी टाउन नम्बर-3 में दी जिसमें उसने बताया कि वह दशहरा ग्रांड एनआईटी में रामतीला देखने गया था। जहां से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। जिसका मामला थाना एसजीएम नगर में दर्ज किया

गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा उंचा गांव की टीम ने आरोपी सोनू और दीपक को जेल से पुलिस प्रोडक्शन पर लिया गया है। आरोपी सोनू ने थाना आदर्श नगर के चोरी के मामले में खुलासा किया था कि उसने दीपक के साथ मिलकर एक मोटरसाइकिल एन आई टी दशहरा ग्रांड से चोरी की थी। सोनू चोरी के मामले में तथा दीपक अवैध हथियार के मामले में जेल में बंद है। आरोपियों से पूछताछ में मोटरसाइकिल को दशहरा ग्रांड बल्लभगढ़ से बरामद कराया है। पूर्व रिपोर्ट अनुसार आरोपी सोनू पर अवैध हथियार, स्नैचिंग, चोरी व



अन्य धाराओं के 14 मामले तथा आरोपी दीपक पर अवैध हथियार, स्नैचिंग, चोरी व अन्य धाराओं के 7

मामले दर्ज हैं। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है।

## लदाख को मनोहर सौगात : बेघर लोगों को मिलेगा आवास

केंद्र सरकार बेघर लोगों का कराएगी सर्वे, लेह और कारगिल के दुर्गम क्षेत्रों में होगी जलापूर्ति

सौर ऊर्जा से जगमग होंगी लदाख की पहाड़ी चोटियां, 13 गीगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र को को लगाने का काम ज़ोरों पर



**समाचार गेट/संजय शर्मा**  
नई दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने लदाख को बड़ी सौगात दी। लदाख में बेघर लोगों को आवास मिलेगा और प्रदेश की पहाड़ी चोटियां सौर ऊर्जा से जगमग होंगी। लदाख को पुनर्विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय ने रोडमैप तैयार किया है। केंद्रशासित प्रदेश सौर ऊर्जा के जरिये बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।

समीक्षा करने के दौरान प्रधानमंत्री दीनदयाल पैंकेज के तहत चल रही परियोजनाओं को दिसंबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का मानना है कि लदाख सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा, लदाख को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 13 गीगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। लदाख दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लेह में सीईएमएल के पहले अध्यक्ष ऊर्जा से चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन का दौरा किया। यह ईवी चार्जिंग स्टेशन क्षेत्र ऊर्जा आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि लेह में एनएचपीसी के 45 मेगावाट निमो-बाजगो हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।

मनोहर लाल ने लदाख क्षेत्र के लोगों को आवास की सौगात दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लदाख में सभी बेघर लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि लदाख में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सभी रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, प्रयास किए जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे।

करोड़ की मंजूरी दी जाएगी। वहीं सदियों के मौसम में प्रदेश के लिए अतिरिक्त बिजली की मांग को केंद्र सरकार के अतिरिक्त से पूरा किया जा रहा है। नुबरा और जांस्कर घाटी तक बिजली आपूर्ति और वितरण लाइनें स्थापित की जाएंगी।

**कचरे से कला की मनोहर ने की सराहना**

कचरे का निस्तारण बड़ी चुनौती है, लेकिन लेह शहर में कचरा शहर की खूबसूरती बढ़ा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा कचरे और स्क्रैप सामग्री से बेजोड़ मूर्तिकला तैयार की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कचरे पर कला को देखकर सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी साबित होंगे। मनोहर लाल ने लेह में वेस्ट-टू-कला मूर्तिकला स्थल का दौरा किया। लदाख का लक्ष्य अपशिष्ट पदार्थों का 100 प्रतिशत प्रसंस्करण करना है।

**लेह और कारगिल में होगी जलापूर्ति**

लदाख के लेह और कारगिल क्षेत्र में जलापूर्ति की जाएगी। इसको लेकर अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) 2.0 के तहत लदाखी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश को पुनर्विकसित करने के लिए 1080

## नशा उपलब्ध करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के घर से 15.580 किलोग्राम गांजा और बरामद

**समाचार गेट/सुमित गोयल**  
फरीदाबाद। नशा तस्करों को नशा उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को अपराध शाखा बदरपुर बॉर्डर की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा बदरपुर बॉर्डर की टीम ने आरोपी दिवाकर सिंह को भगत सिंह कॉलोनी से काबू करके आरोपी से 490 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। जिसके खिलाफ थाना सिटी बल्लभगढ़ में नशा तस्करों की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपी



ने बताया कि यह गांजा को देव नाम के व्यक्ति से 2000/- में खरीदा

है। मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा टीम ने

## पल्ला पुलिस ने बेसहारा बुजुर्ग को ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम में पहुंचाया

**समाचार गेट/ब्यूरो**  
फरीदाबाद। बुजुर्गों की सेवा करने वाली संस्था नवजन मोर्चा समिति(रजि0) ताऊ देवीलाल वृद्ध आश्रम 2डी-ब्लॉक में आज थाना पल्ला पुलिस ने एक बेसहारा बुजुर्ग महिला को पहुंचाया।

पल्ला पुलिस के हेडकास्टेबल कपिल ने आश्रम संचालक किशन लाल बजाज को बताया कि बुजुर्ग महिला पल्ला क्षेत्र लावारिस हालत में बदहवास बैठी थी। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम किरण देवी पत्नी लालेश्वर निवासी मधुबनी बिहार बताया उसके अलावा वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी। हमने अस्पताल पता किया लेकिन इसके परिजनों का कोई पता नहीं लग सका अखिरकार हम उसे ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम लेकर आए। किशन लाल



बजाज ने पुलिस को बताया कि यहां लावारिस बुजुर्गों को पूरे मान सम्मान से रखा जाता है और उनके खाने पीने का भी प्रबंध किया जाता है। हेडकास्टेबल कपिल ने किशन लाल

बजाज से कहा कि उम्र के इस पड़ाव में बेसहारा हो चुके बुजुर्गों की सेवा करके वो वाकई में पुण्य का काम कर रहे हैं जिसके लिए भगवान आपको फल देगा।

किशनलाल बजाज ने पुलिस वालों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने भी इस बुजुर्ग को आश्रम में पहुंचाकर नेक कार्य किया है और इसे मरने से बचाया है।

## राज्य पुरस्कार हेतु वरिष्ठ नागरिक कल्याण/सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों/सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठनों के लिए राज्य पुरस्कारों हेतु आवेदन आमंत्रित: डीसी

**समाचार गेट/ब्यूरो**  
फरीदाबाद। डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय (सेवाएं) के निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु वरिष्ठ नागरिकों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों/सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठनों के लिए भी राज्य पुरस्कारों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डीसी ने बताया कि पात्र वरिष्ठ नागरिक, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत व एनजीओ अपने आवेदन ऑनलाइन फार्म भरकर स्थानीय जिला समाज कल्याण विभाग में 25 नवंबर तक जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए पुरस्कार की राशि, पात्रता की शर्तें व स्क्रीम की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट सोशलजस्टिसएचआरआई.जीओवी.इन से ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे।



शताब्दी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ माँ पुरस्कार, साहस और बढ़ादूरी पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वरिष्ठ चित्रकार पुरस्कार, वरिष्ठ मूर्तिकला पुरस्कार, वरिष्ठ अन्ध्यासरत संगीतकार/गायक पुरस्कार, वरिष्ठ अभ्यास नृत्य पुरस्कार (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीनों पुरस्कार) के लिए प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से वरिष्ठ अन्ध्यासरत खिलाड़ी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ स्वैच्छक संगठन पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ एनजीओ), सर्वश्रेष्ठ वृद्धाश्रम पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ डे केयर सेंटर पुरस्कार के लिए प्रथम

पुरस्कार 1,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए दिए जाएंगे। डीसी ने बताया कि जिला फरीदाबाद अधिकार क्षेत्र में आने वाले योग्य/पात्र वरिष्ठ नागरिक/सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत/एनजीओ आदि समय पर इन पुरस्कारों के लिए आवेदन कर सकें।

**सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए पात्र महिलाएं करें 2 दिसंबर तक आवेदन**  
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं। इसी कड़ी में विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में

उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने के लिए 2 दिसंबर 2024 तक आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2025 को दिया जायेगा। डीसी ने बताया कि राज्य द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली व महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक शाल शामिल है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि आवेदक का जन्म हरियाणा में हुआ हो और महिलाओं के हित के लिए काम करती हो नामांकन करने के दौरान नामांकित व्यक्ति जीवित होना चाहिए। पात्र महिलाएं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग फरीदाबाद, कमरा नंबर 205ए, लेबर कोर्ट सेक्टर 12, फरीदाबाद कार्यालय में 02 दिसंबर 2024 तक स्वयं उपस्थित होकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्म अनुसार आवेदन करें। आवेदन के नियम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



## संपादकीय

## मोदी की प्रतिबद्धता

दुनिया में भारत एवं भारतीय लोकतंत्र का गौरव एवं सम्मान दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विश्व नेता बनकर उभरे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका स्तबा लगातार बढ़ा है। विदेशी

धरती से मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की एक लम्बी शृंखला इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि वैश्विक स्तर पर सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हुई है और उनकी सोच, नीतियों एवं कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। यह भारत के लिये गर्व की बात है। इसी शृंखला में अपनी तीन देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को डॉमिनिका और गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में ब्राजील में जो 20 समिट की बैठक के लिए पहुंचे थे और इसके बाद 3 कैरेबियन देशों की यात्रा पर हैं। कोरोना काल में मानवीय दृष्टि से मदद का हाथ बढ़ाने के लिए डॉमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को 'डॉमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर' और गुयाना ने 'ऑर्डर ऑफ एक्सिलेंस' से नवाजा। भारत के लिये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा महानायक प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। वैसे तो दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है लेकिन इसी सप्ताह उनकी डॉमिनिका, गुयाना और नाइजीरिया यात्रा के दौरान उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, वह हर भारतीय को अभिभूत एवं गौरवान्वित कर देने वाले हैं। ये सम्मान उनके व्यापक सोच, मानवीय दृष्टिकोण, कुशल राजनीतिक नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिम्ब है जिसने वैश्विक मंच पर भारत के उदय एवं उसकी साख को मजबूत किया है। ये सम्मान दुनिया भर के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कुशलता, परिपक्वता एवं दूरदर्शिता से देश का समग्र विकास करते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर किया, इससे पूरा देश तो आत्मविश्वास से भर ही उठा बल्कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर सकारात्मकता, उम्मीदें और भरोसा बढ़ा है।

भारत के लिये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा महानायक प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। वैसे तो दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है लेकिन इसी सप्ताह उनकी डॉमिनिका, गुयाना और नाइजीरिया यात्रा के दौरान उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, वह हर भारतीय को अभिभूत एवं गौरवान्वित कर देने वाले हैं। ये सम्मान उनके व्यापक सोच, मानवीय दृष्टिकोण, कुशल राजनीतिक नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिम्ब है जिसने वैश्विक मंच पर भारत के उदय एवं उसकी साख को मजबूत किया है। ये सम्मान दुनिया भर के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कुशलता, परिपक्वता एवं दूरदर्शिता से देश का समग्र विकास करते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर किया, इससे पूरा देश तो आत्मविश्वास से भर ही उठा बल्कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर सकारात्मकता, उम्मीदें और भरोसा बढ़ा है।

भारत की जनता ने महानायक मोदी को एक नए भारत के शिल्पकार के रूप में देखा। मोदी की हर देश की यात्रा ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय बनी है। बात चाहे अमेरिका यात्रा की हो, वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी गले तो मिले ही साथ ही बाइडेन का यह कहना अपने आप में अद्भुत है कि "आप तो अद्भुत लोकप्रिय हो। मुझे तो आपके आटोग्राफ लेने चाहिए।" आस्ट्रेलिया के सिडनी में जिस तरह से पूरा स्टेडियम वहां बसे भारतीयों ने टसाटस भर दिया और पूरा स्टेडियम मोदी-मोदी के नारों से गुंजायमान हो उठा। उसे देखकर तो आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीस भी हैरान रह गए। दुनिया के बड़े नेता जहां मोदी को सर आंखों पर बैठा रहे हैं, वहीं भारत में मोदी की लगातार बढ़ती साख एवं सम्मान से समूचा विपक्ष बौखलाया हुआ है। मोदी का जितना विरोध किया जा रहा है, उतनी ही उनकी प्रसिद्धता एवं जनसंख्याकार्यता बढ़ती जा रही है। एक तरह से विरोध उनके लिये वरदान बन रहा है। इस युगनायक पर कीचड़ उछालने की जिन तरह की हरकतें की गईं, वर्तमान में वे पराकृष्ट तक पहुंच गयी है। पर इससे मोदी का वर्चस्व धूमिल होने वाला नहीं है। क्योंकि उनकी राजनीति एवं नीति विशुद्ध है और सैद्धान्तिक आधार पुष्ट है। आज भारत देश की वैश्विक साख और गरिमा में जो वृद्धि हुई है उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। विश्व शांति की स्थापना में भारत का योगदान हो या प्रौद्योगिकी के विशाल कर्षितजिन में लंबी उड़ान, यह सब प्रधानमंत्री की विशाल दृष्टि से संभव हो रहा है। हम सब बदलाव की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह सौभाग्य से कम नहीं है। मोदी का संपूर्ण व्यक्तित्व एक पाठशाला बन गया है। उनके व्यक्तित्व के कई अनूठे आयाम हम देख चुके हैं, जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी और असाधारण बात है उनके वक्तव्य और भाषण। जितनी स्पष्टता और प्रभावी तरीके से वे अपनी बात रखते हैं वह बिल्कुल है। उनकी दूरदृष्टि या विजन बिल्कुल स्पष्ट होता है। उन्होंने लोगों में विश्वास जगाया है कि भारत में आर्थिक विकास करने और दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम करने की क्षमता है। कठोर परिश्रम एवं अनुशासित जीवन के प्रति उनके अनुराग ने दुनिया को प्रभावित और प्रेरित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बाल स्वयंसेवक बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक उनका जीवन अनुशासित रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए, हर पल उत्साह से बिताया और नियमित योग करना उनकी निरचर्या है। कई अवसर ऐसे आये जब श्री मोदी ने यह सिखाया और प्रयोग करके दिखाया कि कैसे धैर्य और विनम्रता सबसे भरोसेमंद साथी हैं। इनके सहारे कठिन चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

भारत के लिये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा महानायक प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। वैसे तो दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है लेकिन इसी सप्ताह उनकी डॉमिनिका, गुयाना और नाइजीरिया यात्रा के दौरान उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, वह हर भारतीय को अभिभूत एवं गौरवान्वित कर देने वाले हैं। ये सम्मान उनके व्यापक सोच, मानवीय दृष्टिकोण, कुशल राजनीतिक नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिम्ब है जिसने वैश्विक मंच पर भारत के उदय एवं उसकी साख को मजबूत किया है। ये सम्मान दुनिया भर के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कुशलता, परिपक्वता एवं दूरदर्शिता से देश का समग्र विकास करते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर किया, इससे पूरा देश तो आत्मविश्वास से भर ही उठा बल्कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर सकारात्मकता, उम्मीदें और भरोसा बढ़ा है।

## राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

## समाचार गेट

को TITILE CODE : HARHIN11569

## आवश्यकता है

हरियाणा के प्रत्येक जिले में ब्यूरो चीफ  
उपमंडल व ब्लॉक स्तर पर संवाददाता  
ग्रामीण संवाददाता फोटोग्राफर  
विज्ञापन प्रतिनिधि  
इच्छुक युवक-युवती अपना बायोडेटा मेल करें-  
samachargate@gmail.com  
Cont.: 9212339503

## 5 दिसंबर तक करें सुशासन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन : डीसी

## हरियाणा सुशासन पुरस्कार 2024 के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान

## विभिन्न सेक्टर में नवाचार व नायाब कार्य करने वाले कर्मचारी सुशासन पुरस्कार योजना के तहत होंगे सम्मानित

समाचार गेट/अनिल मोहनियां नूंह। उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024' अधिसूचित की है। जिसके तहत शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा व रचनात्मक और नवीन कार्यों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करके शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम, सोसाइटी, विश्वविद्यालय, हरियाणा सरकार के अधीन उपक्रम के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को अपने ऑनलाइन आवेदन haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पर पोर्टल के माध्यम से या दस्ती तौर पर 'सशक्त समिति' या 'जिला-स्तरीय सशक्त समिति' के पास जमा करवाने होंगे। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर, 2024 है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक फ्लैगशिप योजना के लिए 51,000 का नकद पुरस्कार भी प्रदान

किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नकद पुरस्कार की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। प्रथम पुरस्कार के लिए 51,000 रुपये, दूसरे पुरस्कार के लिए 31,000 रुपये और तीसरे पुरस्कार के लिए 21,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 'जिला-स्तरीय पुरस्कार' भी दिए जाएंगे, जो प्रत्येक जिले के उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। जिले में तीन श्रेणियों की टीमों को मान्यता दी जाएगी। इनमें प्रथम स्थान के लिए 31,000, दूसरे स्थान के लिए 21,000 और तीसरे स्थान के लिए 11,000 रुपये के नकद पुरस्कार निर्धारित हैं।

उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सुशासन को बढ़ावा देने में असाधारण प्रयासों को मान्यता देने के लिए विशिष्ट पुरस्कारों की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत राज्य स्तर पर पुरस्कारों को फ्लैगशिप योजना पुरस्कार और राज्य-स्तरीय पुरस्कार में वर्गीकृत किया गया है। राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजना के तहत उन प्रमुख परियोजनाओं में



शामिल टीमों को सम्मानित किया जाएगा, जिनसे शासन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन पुरस्कारों में एक टॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र शामिल है, जिसे प्रत्येक सम्मानित कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा।

**चयन की पारदर्शी प्रक्रिया :** सुशासन पुरस्कार योजना के तहत कर्मचारियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिनके आधार पर पुरस्कारों के लिए कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग फार्मूले के तहत

**इन सेक्टर में मिलेंगे पुरस्कार :** यह पुरस्कार विभिन्न सेक्टरों में बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे। इकोनॉमिक सेक्टर के तहत सब सेक्टर की श्रेणी में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, परिवहन, आर्थिक शासन व

## कनीना पावर हाउस से अज्ञात चोरों ने बिजली उपकरण चोरी किए

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कनीना। कनीना स्थित 132 केवी पावर ग्रिड सबस्टेशन के समीप बने स्टोर से अज्ञात चोरों ने बिजली के उपकरण चोरी किए। इस बारे में बिजली निगम के एसडीओ उमेश कुमार वर्मा ने कनीना सिटी थाने में दी शिकायत में कहा की बीते सितंबर माह में 132 केवी एसएसटीएन के पीछे एचवीपीएन कॉलोनी से चोरी हो गई है। दी गई शिकायत में उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को क्षेत्र प्रभारी शंकर लाल जेई ने मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि साइट का ताला खुला हुआ था और अंदर का सामान गायब था। जिस स्थान पर सामग्री रखी गई थी 'डीएचबीवीएन को 52, 174 रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। चोर 100 केवीए ट्रांसफार्मर की 45 एलटी रॉड, 200 केवीए ट्रांसफार्मर की 10 एलटी रॉड, 45 पीजी क्लैप, 48 किलोग्राम तांबे का स्क्रेप चोरी कर ले गए। पुलिस ने उमेश कुमार की शिकायत पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

## बिना इंडिकेटर सड़क पर खड़े ट्रक में मोटरसाइकिल चालक ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कनीना। कनीना-महेंद्रगढ़ सड़क मार्ग पर गुढ़ा गांव के निजी स्कूल के समीप घटित एक सड़क हादसे में बाइक चालक को दर्दनाक मौत हो गई मृतक की पहचान गुढ़ा निवासी मदनलाल के रूप में हुई है। इस बारे में झगड़ौली निवासी हरिप्रकाश ने कनीना सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे वह अपनी गाड़ी में सवार होकर कनीना की ओर से अपने घर जा रहा था, कृष्णा स्कूल के समीप एक ट्रक बिना इंडिकेटर दिए हुए खड़ा था उनकी गाड़ी के आगे चल रहे बाइक सवार की टुक से टक्कर हो गई जिससे बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया घायल व्यक्ति को उप नागरिक अस्पताल कनीना में दाखिल करवाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया मृतक की पहचान गुढ़ा निवासी मदनलाल के रूप में हुई। हरिप्रकाश ने हादसे की सूचना मृतक के भाई रवि तथा पुत्र हिमांशु को दी जो शीघ्रता से मौके पर पहुंचे पुलिस ने शनिवार को शव का पंचनामा करवा कर परिजनों को सौंप दिया जहां गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया पुलिस की अनुसंधान अधिकारी रेखा ने बताया कि हादसे के आरोपी ट्रक चालक को खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

## मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना भी अब सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में हुई शामिल : उपायुक्त प्रशांत



समाचार गेट/अनिल मोहनियां

नूंह। हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता' योजना को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। साथ ही, इसके तहत प्रदान किए जाने लाभों के लिए 45 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। उपायुक्त प्रशांत पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 'मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता' योजना के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी जबकि कार्यक्रम अधिकारी (पोषण)/उप-निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।

**क्या है 'मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता' योजना :** उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान को भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए 'मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता' योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने बताया कि अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृत्व सहायता योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत पांच हजार रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किस्तों में देने का निर्णय लिया है।

## नूंह जिले में आयुष्मान कार्ड से हुसैन हॉस्पिटल में मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज : डॉ आबिद हुसैन

समाचार गेट/अनिल मोहनियां नूंह। जिला मुख्यालय के मेवली मोड नवदीप मेडिकल कॉलेज रोड स्थित हुसैन अस्पताल में मरीजों को सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। यहां पर प्रतिदिन आयुष्मान योजना के अंतर्गत फ्री में मरीज अपना इलाज कराने आ रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए हुसैन अस्पताल के निदेशक डॉ आबिद हुसैन ने बताया कि हमारे अस्पताल में हर प्रकार की बीमारियों का बारीकी से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। नूंह शहर में पहली बार आयुष्मान कार्ड से सभी प्रकार के ऑपरेशन भी बिलकुल फ्री में किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनरल सर्जरी का लाभ दिया जा रहा है। दूरबीन व चीरा द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर, हर्निया, गुर्दे की पथरी, गद्दू आदि के लिए भी केसलेस इन्शोरेंस सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अर्थो सर्जरी, हड्डी के सभी प्रकार के ऑपरेशन सेफेव टीपीए, अनमोल टीपीए, हेल्थ इंडिया टीपीए, एफिसनएफिसन टीपीए, इंग्टी नाक, कान, गले के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सामान्य रोग जैसे टैंगू, मलेरिया, टाइफाइड या पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी, छाती से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। बजाज आलियांज जनरल इन्शोरेंस, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इन्शोरेंस, चोल एमएस जनरल इन्शोरेंस, एसबीआई जनरल इन्शोरेंस व कैशलेस टीपीए की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी व इलाज के लिए उनकी अस्पताल में पहुंचकर एक बार सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें।

## हरियाणा सरकार 26 नवंबर को मनाएगी संविधान दिवस

## कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे मुख्य अतिथि

समाचार गेट/ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने भारतीय संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश में साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में की और उन्हें संविधान दिवस मनाने के लिए 26 नवंबर को प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

इस ऐतिहासिक अवसर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ हमारे संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मान देने और उसे स्वीकार करने का एक



उपायुक्त अवसर है। उन्होंने कहा कि इस स्मरणोत्सव का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराना और लोकतंत्र को मजबूत करने में नागरिकों को उनकी सही भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। बैठक में उपायुक्तों और कुलपतियों ने बताया कि संविधान दिवस मनाने के लिए संविधान की प्रस्तावना पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद-विवाद, पोस्टर-मेकिंग प्रतियोगिता, अतिथि व्याख्यान, फिल्म स्क्रीनिंग, वाल पेंटिंग जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इस पहल में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और अमृत सरोवर स्थलों पर प्रस्तावना का समूहिक पाठ आयोजित किया

साल भर चलने वाली यह पहल 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' टैगलाइन के तहत संचालित की जाएगी और चार केंद्रीय विषयों : संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का जश्न मनाना, के इर्द-गिर्द घूमेंगी। आम नागरिकों को भी इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वे अपनी सेल्फी constitutionjz.com वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं।

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, विरासत और पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती कला रामचंद्रन, सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग, कार्मिक, प्रशिक्षण और संसदीय मामलों के विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

## विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सिवानी कालेज के तीन विद्यार्थी रहे अव्वल

समाचार गेट/सोनिका सूर


सिवानी। फतेहचंद महिला महाविद्यालय में हुए जौनल स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सेठ मेघराज जंदल राजकीय महाविद्यालय ने द्वितीय स्थान हासिल कर बीएससी के विद्यार्थी स्वीटी, ललित और पंकज ने मैडल प्राप्त किया। मीडिया प्रभारी महीपाल सिंह ने बताया कि विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 6 जिलों के विभिन्न महाविद्यालयों से 30 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान इस महाविद्यालय से और पुरस्कार के रूप में 30000 रुपये की नकद राशि प्राप्त की। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यपाल सिंह, डा. राज कुमार, डा. प्रवीण कुमार, डा. मुकेश रानी, डा. पूजा और महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने बधाई दी।

## भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र जीत पर बांटी मिठाई

समाचार गेट/सोनिका सूर

सिवानी। शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली बंपर जीत पर मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी और खुशी प्रकट की। भाजपा कार्यकर्ता सुनील थोपड़, संजय राहुड़, संदीप गढवा और देवेन्द्र नंबरदार ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मीठा मुंह करवाया और कहा कि देश भर में पहले की तरह आज भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। इस मौके पर देवेन्द्र नंबरदार, रोहाशा शंयोगार आदि मौजूद थे। पूर्व वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस को मिली बंपर जीत पर खुशी जताई व महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को बधाई दी और कहा कि पूरे देश भर में बीजेपी प्लस के पक्ष में हवा चल रही है राजस्थान उत्तर प्रदेश के उच चुनाव में बंपर जीत जिसका जीता जाता उदाहरण ही है हरियाणा था और महाराष्ट्र है। उन्होंने महाराष्ट्र में मिली बंपर जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुहमंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी।

## राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेडिकल कॉलेज मुलाना का किया निरीक्षण



समाचार गेट/ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने गत देर सायं मेडिकल कॉलेज मुलाना का निरीक्षण किया और कॉलेज के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ अर्थ क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो गतिविधियां चलाई जा रही है, उसकी जानकारी हासिल की। राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज में स्थापित लैब, लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और यहां दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाला समय आपका है। आप देश का वर्तमान और भविष्य है। आज के समय में राष्ट्र निर्माण के लिए पैसा नहीं बल्कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से जीवन में नैतिक मूल्य के महत्व के बारे में भी चर्चा की।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज का युवा कल का कर्णधार है। युवा देश का भविष्य है, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का अहम योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि खेल और शिक्षा दोनों में युवाओं को आगे अग्रसर रहना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव में व्यायामशालाएं बनाई गई हैं ताकि युवा ग्रामीण आंचल से ही खेल जगत के तहत मजबूत प्रशिक्षण हासिल कर सकें। राज्यपाल ने प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए संदेश दिया और बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने का अहमत्व बताया। उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए हम सब को मिलकर प्रयास करने होंगे तभी नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इस अवसर पर एसडीएम अश्विनी मलिक, पुलिस उप अधीक्षक रजत गुलिया, एमएम यूनिवर्सिटी के चांसलर तरसेम गर्ग, वार्डस चांसलर एच के शर्मा, डॉ विशाल गर्ग, डॉ मिनक्षी गर्ग व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



## सिपाही की हत्या के मामले में मुठभेड़ के बाद एक गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोविंदपुरी इलाके में सिपाही की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में मुठभेड़ के बाद एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। उसे पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपित की पहचान दीपक मैक्स के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावर सिपाही की हत्या के मामले में शामिल था। पुलिस सूत्रों के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि गोविंदपुरी में सिपाही के हत्या के मामले में आरोपित डीडीए प्लेटेड्स के गोविंदपुरी के पास है। सूचना को पुख्ता कर पुलिस की दो टीमों मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने आरोपित को पकड़ने को कोशिश की। जिसपर आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग की दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपित के पैर में लग गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस बीच दो आरोपित मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि बीती देर रात गोविंदपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के किरणपाल ( 28) नामक एक सिपाही की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। सिपाही गोविंदपुरी थाने में तैनात था और घटना के दौरान पेट्रोलिंग कर रहा था। उसी दौरान उस पर चाकू से हमला हुआ था।

### हत्या के प्रयास के मामले में वांछित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपित खजुरी खास निवासी अरमान उर्फ शोएब उर्फ बोगा ( 25) को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वह अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए अगस्त 2024 से छिप रहा था। जांच में पता चला है कि आरोपित पहले से डकैती, झूटफ्तारी, चोरी आदि के 09 मामलों में शामिल रहा है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजय सेन के अनुसार क्राइम ब्रांच वांछित आरोपितों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही है। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि 12 अगस्त को खजूरी खास इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में शामिल अरमान उर्फ शोएब पानीपत आने वाला है। सूचना को पुख्ता कर पुलिस टीम ने इलाके में जाल बिछाकर आरोपित को दबोचा। जांच में पता चला कि 12 अगस्त को आरोपित अरमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए नईम उर्फ कलू की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। उसके साथियों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन उक्त मामले का मास्टरमाइंड अरमान तब से फरार था।

## ठक–ठक गिरोह का बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने ठक–ठक गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मदनगंीर निवासी तुषि उर्फ सोनू ( 26) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के पास से चार लाख रुपये बरामद किए है। पूछताछ के दौरान आरोपित ने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर थाना आदर्श नगर जयपुर राजस्थान से बेग में रखे 10 लाख रुपये चुराए थे। इस संबंध में थाना आदर्श नगर जयपुर में केस दर्ज किया गया था। दक्षिण जिले के डीसीपी अंकित चौहान के अनुसार दक्षिण जिले के क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले की पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपित के बारे में पता चला। पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की। इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपित जयपुर में छुपा हुआ है। पुलिस ने एक टीम को जयपुर भेजा। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित को दबोचा। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर चार लाख रुपये बरामद किए। जांच में पता चला कि आरोपित ठक–ठक गिरोह का सक्रिय सदस्य है। फिलहाल पुलिस आरोपित के अन्य साथियों की तलाश कर रही है।

### पर्यावरण मंत्री ने देर रात सिंधु बॉर्डर पर जाकर ग्रेप 4 के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार देर रात नरेला और सिंधु बॉर्डर पर जाकर ग्रेप 4 के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई जगह से ग्रेप 4 के नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिल रही थी। इसलिए आज हम यहां देखने आए हैं कि रात में क्या स्थिति है। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रही है। निरीक्षण के दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर ग्रेप 4 लागू है। दिल्ली में बीएस 3 और बीएस 4 की गाड़ियों और ट्रकों की एंटी पर बैन है। कई जगह से ग्रेप 4 के निगमों के उल्लंघन की शिकायत मिल रही थी। इसलिए आज हम यहां देखने आए हैं कि रात में क्या स्थिति है। जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों का चालान भी किया जा रहा है। मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि चाहे वो ड्राइवर हो या ट्रक मालिक हो, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकथाम के लिए इन गाड़ियों की एंटी बैन है, इसलिए इस तरह की गाड़ियां न भेजें। ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे से गाड़ियों को ड्रायवर्ट कर लें, ताकि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके।

### प्रेमी से शादी करने के लिए अपनी ही बच्ची को उतारा मौत के घाट

नई दिल्ली। उत्तर पश्चिमी जिले के अशोक विहार इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपनी पांच साल की बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। गुरुवार शाम बच्ची को गंभीर हालत में दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची। जांच में बच्ची के लगे परिशान मिले। बच्ची की मां और कुछ रिश्तेदारों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने जब बच्ची की मां से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। महिला ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बेटी की गला घोटकर हत्या की। उसने बताया कि उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था और कुछ दिन पहले ही वह दिल्ली आई थी। उसके दिल्ली आने का कारण एक व्यक्ति से शादी करना था, जिसके साथ उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि जिस व्यक्ति से महिला शादी करना चाहती थी, उसके परिवार ने बच्ची को अपना नहीं चाहा और शादी से इनकार कर दिया। जांच में पता चला कि दिल्ली आने से पहले आरोपित मां अपने एक रिश्तेदार के साथ हिमाचल प्रदेश में रहती थी। इस दौरान रिश्तेदार ने बच्ची का यौन शोषण किया। पुलिस ने हत्या और पाँवसो कांड के तहत मामला दर्ज कर आरोपित मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बच्ची के साथ यौन शोषण करने वाले रिश्तेदार की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

## डीयू में अगले माह खुलेंगे रोजगार के द्वार

**–सेंट्रल प्लेसमेंट सेल चार व पांच दिसंबर को आयोजित करने जा रहा है जाँब मेला**

**–प्लेसमेंट और इंटरनिशप प्राप्त करने का मिलेगा मौका**

नई दिल्ली। नई दिल्ली, 23 नवंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के तहत छात्रों के लिए अगले माह रोजगार पाने के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। डीयू का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल डीन स्टूडेंट वेल्फेयर के तत्वावधान में दो दिवसीय जाँब मेला आयोजित करेगा। चार व पांच दिसंबर को आयोजित होने वाले इस मेले में छात्रों को प्लेसमेंट व इंटरनिशप प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इसके लिए छात्र व नौकरी की पेशकश करने की इच्छुक कंपनियां 26 नवंबर तक पंजीकरण करा सकती हैं। इस दौरान छात्रों को कम से कम साढ़े तीन लाख सैलरी पैकेज की पेशकश होगी। यह इस सत्र का पहला जाँब मेला है। इसमें 20 से अधिक कंपनियों के पहुंचने की संभावना है। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल (सीपीसी) से जुड़े अधिकारी के अनुसार इस जाँब मेले में छात्रों को कंपनियों के समक्ष उपस्थित होने का मौका मिलेगा। 26 नवंबर तक कंपनियों को पंजीकरण कराना है। इसमें ना केवल छात्रों को नौकरी की पेशकश होगी बल्कि व इंटरनिशप भी प्राप्त कर सकेंगे। डीयू का प्रयास है कि इस जाँब मेले के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा छात्रों को नौकरी और इंटरनिशप प्राप्त करने के अवसर मिलें। मालूम हो कि डीयू में इस तरह से जाँब मेले की शुरुआत करीब तीन साल पहले की गई थी। जाँब मेले में छात्रों को अच्छे सैलरी पैकेज मिलने की संभावना है। कंपनियां छात्रों को उनके प्रोफाइल के हिसाब से वार्षिक 3.5 लाख से लेकर आठ लाख रुपये तक की पेशकश कर सकती हैं। जाँब मेले में वही छात्र हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने इस मेले के लिए अपना पंजीकरण कराया होगा। इसके बाद प्रशासन प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने की भी तैयारी कर रहा है। जिसके लिए भी कंपनियों से बाचवर्ती की जा रही है।

# दिल्ली समाचार

# दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी द्वारा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के बारे में अफवाह फैलाने को लेकर पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज

### –सरना भाइयों ने साजिश के तहत गुमराह करने वाला प्रचार किया-हरमीत सिंह कालका, जगदीप सिंह काहलॉ

**नई दिल्ली (एजेंसी )।** दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गहन जांच कर कार्रवाई करने के मामले को शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई है और कहा है कि कमेटी के पूर्व प्रधान सरना भरा कौम की संस्थाओं को बंदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आज यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका और जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह काहलॉ ने बताया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी द्वारा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा

## कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा सम्मानित करने पर- डॉ. संदीप मारवाह को बधाई दी

**नई दिल्ली (एजेंसी )।** नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक, मारवाह स्टूडियो के अध्यक्ष और ए एफटी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. संदीप मारवाह को परियोजना ( ‘बी द लाइट’) में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली, यूएफए द्वारा सम्मानित किया गया है। कैलिफोर्निया राज्य विधानमंडल 46वें असेंबली डिस्ट्रिक्ट के असेंबली सदस्य जेसी गेंब्रियल द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिष्ठित सम्मान प्रमाण पत्र, दिया गया यह प्रमाण पत्र परियोजना की दूत और सह-आरंभकर्ता रूही (रोहिणी हक) द्वारा व्यक्तिगत रूप से भारत को दिया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान डॉ. मारवाह की होपब्लिट पहल के लिए ‘अनगिनत समर्पित सेवा के को समर्पित है जो वैश्विक महिला सशक्तिकरण नेटवर्क के तहत एक वैश्विक परियोजना है, जिसे वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी ऊर्जा समाधान लाने के लिए डिज़ाइन किया

गया है। इस परियोजना हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए प्रगति, समानता और सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। विधानसभा सदस्य जेसी गेंब्रियल ने अपने बधाई संदेश में कहा, ‘मैं शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यह सम्मान वैश्विक क्षेत्र में डॉ. मारवाह की व्यापक सलाह और नेतृत्व को मान्यता देता है, विशेष रूप से बी द लाइट

परियोजना के लिए एक राजदूत और सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका में, होपब्लिट परियोजना के पीछे दूरदर्शी रूही (रोहिनी हक) ने डॉ. मारवाह के भागीदारी के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, एक राजदूत और सलाहकार के रूप में, ‘डॉ. संदीप मारवाह की सलाह और होपब्लिट में योगदान वास्तव में प्रेरणादायक है जो प्रगति और समानता का प्रतीक है। उनके

# प्राकृतिक चिकित्सा केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीवन जीने की कला भी है-विजेंद्र गुप्ता

### –नेता प्रतिपक्ष ने रोहिणी में प्राकृतिक चिकित्सा मेले का उद्घाटन किया

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज ‘आयुष मंत्रालय’ द्वारा 7वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस समारोह के अंतर्गत आज रोहिणी सेक्टर- 19 स्थित प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल में आयोजित ‘प्राकृतिक चिकित्सा मेला’ का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए गुप्ता ने प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को रेखांकित करते हुए, स्वस्थ जीवनशैली एवं शाकाहारी भोजन-पान अपनाने के लिए लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली चिकित्सा की एक



जीने के अनूठे तरीकों की जानकारी दी। गुप्ता ने उम्मीद जताई कि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में चलाने जा रहे ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ और ‘आयुष्मान भारत’ जैसे अभियान से प्रेरित होकर, ऐसे आयोजन नागरिकों को

## अमृतधारी बच्ची को ककार पहनने के कारण परीक्षा में न बैठने देने के लिए सरकार ने माफी मांगी : हरमीत सिंह कालका, जगदीप सिंह काहलॉ

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख ककार धारण करने के कारण युवा सिख लड़की मेहरलीन कौर को पेपर देने से रोकने पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (डीएसएसएलसी) पर सांकेतिक मुआवजा लगाया है और बोर्ड ने अदालत में सिख लड़की से लिखित माफी भी मांगी है। यह बयान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह काहलॉ ने दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए सरदार कालका और सरदार काहलॉ ने बताया कि यह मामला 2021 का है, जब अमृतधारी सिख लड़की को सिख ककार धारण करने के कारण परीक्षा देने से रोका गया था। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के लीगल सेल ने सरदार जगदीप सिंह काहलॉ के दिशा-निर्देशों में यह केस दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा और आज इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि यह ऐतिहासिक पल है, जब हाई कोर्ट ने दिल्ली एसएसएस बोर्ड को निर्देशित किया कि एक सीट खाली रखकर लड़की की परीक्षा दोबारा ली जाए और लड़की को परीक्षा से ली गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने हाई कोर्ट से यह भी अपील की थी कि दिल्ली एसएसएस बोर्ड अपने रवये के लिए लिखित माफी मांगे और इसे सांकेतिक मुआवजा भी देता जाए। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर लिखित माफी मांगी है और हाई कोर्ट ने बोर्ड पर 101 रुपये का सांकेतिक मुआवजा भी लगाया है।

# गुरु हरिक्रिशन स्कूलों के प्रबंधन में बदलाव की आशंकाओं के पीछे गुजरात कनेक्शन आया सामने

### –पंथक स्कूलों को गुजराती सोसायटी को देने के खेल के पीछे दिल्ली कमेटी प्रबंधकों की छिपी मंशा- जीके

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** गुरु हरिक्रिशन पब्लिक स्कूलों की प्रशासनिक और संचकात्मक सुविधाएं दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल सोसाइटी को देने के बारे में कल प्रकाशित हुईं खबरों पर आज अकाली नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया।शिरोमणी अकाली दल की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने इस मामले में दिल्ली कमेटी प्रबंधन की कथित दुर्भावना और लापरवाही का जिक्र किया। जीके ने दावा किया कि गुरु हरिक्रिशन पब्लिक स्कूलों को दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ जोड़ने के स्कूल स्तर पर और उनके वकीलों द्वारा जारी किए गए स्वागती ब्यान अखबारों में गुप्त उद्देश्य के तहत

प्रकाशित करवाएं गए थे। लेकिन जब संगत ने इस गठबंधन के खिलाफ नाराजगी की तो आज दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका स्कूल स्टाफ को कारण बताओ नोटिस देने और वकीलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। जीके ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल सोसायटी का मालिक गुजरात के अंकलेश्वर का रहने वाला विजय कुमार उत्तम भाई पवार हैं। तो कालका हमें यह बताएं कि गुरु हरिक्रिशन पब्लिक स्कूल और उनके खास स्टाफ सदस्यों और कालका के दफ्तर के गुजरात कनेक्शन का सच क्या है? क्योंकि कालका ने पंथक स्कूलों को संभालने के गुजराती सोसायटी के प्रस्ताव का स्वागत करने वाले उक्त स्टाफ को पिछले समय तरछ्ही देकर निवाजा था। अब गुजराती सोसायटी द्वारा आपके दफ्तर को भेजी गई कथित पेशकश की इमेल आपके खास स्टाफ तक कैसे पहुंच गई ? जीके ने खुलासा किया कि यह गुजराती सोसायटी मूल दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी नहीं है, लेकिन इन दोनों स्टाफ के वकील हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं।

रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमने अब दिल्ली पब्लिक स्कूल को प्रबंधन को भी ईमेल भेजकर पूछा है कि क्या यह प्रस्ताव आपने भेजा है और यदि भेजा है तो किसके कहने पर भेजा है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है और मामले की गहन जांच कर एफ आई आर दर्ज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि इन वकीलों को सरना भरा हर महीने केस लड़ने के लिए पैसे देते हैं और सरना भरा ही कमेटी और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों की बंदनामी के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि जब भी नवंबर से जनवरी तक स्कूलों में दारिखले का समय होता है तो सरना भरा और उनके नए साथी मंजीत सिंह जी.के. दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों तथा कौम की अन्य संस्थाओं के खिलाफ झूठ प्रचार करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि



दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों को बहुत अच्छे तरीके से चला रही है और ये स्कूल एक बार फिर से कौम की तरछ्ही का प्रतीक साबित होने वाले हैं, जो बात हमारे रजनैतिक विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है,

जिनके खिलाफ गोलक चोरी और कौम की संस्थाओं को बेचने के आरोप लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस झूठे प्रचार अभियान की तह तक जाएंगे और दोषियों को सजा दिलवाकर ही दम लेंगे।

## महाराष्ट्र में भाजपा महायुति गठबंधन की विजय मोदी की लोक कल्याणकारी नीति की जीत है: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणामों का स्वागत करते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में ‘भाजपा-महायुति गठबंधन’ ने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। गुप्ता ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव-2024 में ‘भाजपा-महायुति गठबंधन’ को मिली अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक-कल्याणकारी नीतियों और महाराष्ट्र की जागरूक जनता के अटूट विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी गठबंधन ने महाराष्ट्र में 200 सीटों का आंकड़ा पार किया। अकेले भाजपा ने पूरे महा विकास आघाड़ी से अधिक सीटें जीतकर राज्य की सबसे भरोसेमंद पार्टी के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की है। ‘एक है तो सेफ है’। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक-कल्याणकारी कार्यकर्ताओं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनत प्रकाश नड्डा के कुशल नेतृत्व, केंद्रीय गृहमंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की दोस्ती की रणनीति और महाराष्ट्र की जनता की जीत है। गुप्ता ने कहा कि यह महाविजय भाजपा के हर कार्यकर्ता के परिश्रम, अदम्य उत्साह का प्रतीक है, दिन-रात एक कर पार्टी के सिद्धांतों और विकास के सिद्धांतों को हर घर तक बनाए रखना है। गुप्ता ने महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित जनता का दिल से उत्साह बढ़ाते हुए भाजपा परिवार के सभी कर्मठ साथियों की हार्दिक बधाई दी, जिन्होंने इस विजय को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई।

## मांगेराम गर्ग के जन्म जयंती पर सेवा कार्य से श्रद्धांजलि



नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मांगेराम गर्ग को उनके जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर हवन, भंडारा व दीपचंद बंधु अस्पताल अशोक विहार में फल वितरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री व सांसद योगेंद्र चंदोल्या ने कहा कि मांगेराम गर्ग श्रेष्ठतम सेवा द्रवीं थे, वे बाल काल में समालाखा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाना हो या फिर युवावस्था में विनोवा भावे के सानिध्य में स्वालंबन आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में कार्य करते हुए घरों से शौच साफ करना, प्रौढावस्था में समाज व राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु सैकड़ों संस्थाओं का सृजन, समाज हित में सदैव समर्पित रहने का भाव जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन एकाग्रता और निष्ठा से परिपूर्ण समाज और राष्ट्र के कल्याण, उन्नति और विकास के लिए समर्पित रहा। बाऊजी श्रेष्ठ संगठक थे। उनके नेतृत्व में दिल्ली की सातो लोकसभा सीटों पर पहली बार हमने विजय का परचम फहराया उन्होंने अपने सूक्ष्म प्रबंधन कला से दिल्ली में बुध संमिति के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख का सहभागी होने का प्रभाव दिया। सतीश गर्ग कोषाध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश ने बाऊजी को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में जिला केशव पुरम भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, डॉ महेंद्र नागपाल, योगेश वर्मा, अजय खटाना, देवराज, अजय शर्मा, सुरेश भारद्वाज, उमाकांत, प्रवेश टोनी, गीता गुलाटी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हुए।

## गश्त कर रहे पुलिसकर्मी की चाकू घोंपकर हत्या

नई दिल्ली। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। सिपाही गोविंदपुरी थाने में तैनात थे और घटना के दौरान पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी चाकू से हमला हुआ। मृतक सिपाही की पहचान 28 साल के किरण पाल के रूप में हुई है। पुलिस से यह शो कजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है।

## दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी द्वारा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के बारे में अफवाह फैलाने को लेकर पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज



नहीं होता है। यदि ये स्कूलों को दिया जाने वाला अनुदान था तो ये ऋण कैसे हो सकता है? यदि यह ऋण है तो अनुदान कैसे हो सकता है? जीके ने इस कथित फॉरेसिक ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि कई स्कूलों की फीस वसूली और स्टाफ की सैलरी पर 100 से 373 फीसदी तक ज्यादा अनुपात सामने आया है। इस 1 रुपये की यह पर 3.75 रुपये के स्टाफ वेतन खर्च वाले स्कूलों में कालकाजी स्कूल का होना यह साबित करता है कि प्रधान साब ने अपने क्षेत्र से जोट पाने



+





## महिंद्रा लाइफस्पेस की इकाई सुमितोमो चेन्नई औद्योगिक पार्क में करेगी 225 करोड़ का निवेश

- औद्योगिक पार्क वर्तमान में 307 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है

नई दिल्ली ।

रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी और जापान सुमितोमो कॉरपोरेशन तमिलनाडु में अपनी मौजूदा औद्योगिक पार्क परियोजना के विस्तार के लिए करीब 225 करोड़ रुपये निवेश करेगी। औद्योगिक पार्क वर्तमान में 307 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें वैश्विक और घरेलू कंपनियों अपनी औद्योगिक सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। महिंद्रा लाइफस्पेस ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसकी अनुषंगी कंपनी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड (एमडब्ल्यूसीडीएल),

सुमितोमो कॉरपोरेशन और महिंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क चेन्नई लिमिटेड (एफआईपीसीएल) ने तमिलनाडु में मौजूदा औद्योगिक पार्क के विस्तार के लिए एक 'पूरक संयुक्त उद्यम समझौता' किया है। महिंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क चेन्नई लिमिटेड (एफआईपीसीएल), एमडब्ल्यूसीडीएल की अनुषंगी कंपनी है। महिंद्रा लाइफस्पेस के पास एमडब्ल्यूसीडीएल में 89 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) के पास शेष 11 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा एमडब्ल्यूसीडीएल के पास एमआईपीसीएल में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 40 प्रतिशत हिस्सेदारी

सुमितोमो कॉरपोरेशन (जापान) के पास है। कंपनी सूचना के अनुसार संयुक्त उद्यम साझेदारों यानी एमआईपीसीएल के शेयरधारकों ने परियोजना के विकास के लिए करीब 225 करोड़ रुपये निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। पूंजी निवेश संयुक्त उद्यम साझेदारों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुसार उसी अनुपात में किया जाएगा।

महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स के एक वे रिडि ओ धिकारी ने कहा कि महिंद्रा लाइफस्पेस में हम औद्योगिक संकुल और एकीकृत शहरों को विकसित करने पर गर्व महसूस करते हैं जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देते हैं तथा व्यवसायों का समर्थन करते हैं।

## अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ेंगी, अब सेबी ने भी मांगा जवाब

- सेबी भी जानना चाहता है कि क्या अडानी समूह ने खुलासा मानदंडों का उल्लंघन किया है

नई दिल्ली ।

अमेरिका में गौतम अडानी और अडानी समूह से जुड़े 7 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायित्व होने के बाद अब बाजार नियामक सेबी भी यह जानना चाहता है कि क्या अडानी समूह ने खुलासा मानदंडों का उल्लंघन किया। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को अडानी समूह की कंपनियों से अमेरिकी न्याय विभाग और

सिक्वे योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मामलों से संबंधित लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन की जानकारी मांगने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि 21 नवंबर को अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और समूह से जुड़े सात अन्य लोगों पर भारत में कारोबार हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अडानी समूह ने इन आरोपों से इनकार करते हुए

इन्हें निराधार बताया है। समूह ने कहा कि वह सभी कानूनी विकल्प का उपयोग करेगा। एक्सचेंजों ने अडानी समूह से पूछा है कि क्या अमेरिका में जांच के खुलासे में कोई चूक या देरी हुई थी, जिसके तहत समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को 20 नवंबर को आरोपी बनाया गया है। सूत्रों ने कहा कि फिलहाल अधिकारियों या कंपनियों के



खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं हुई है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा है कि ऐसी किसी भी जांच या कार्रवाई में काफी देर होती है। फिलहाल में सभी प्रक्रियाएं हमारे निगरानी तंत्र के दायरे में हैं।

## भारतीयों को ब्रांड भारत बनाने पश्चिम के फरमानों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए: सीतारमण

- प्राचीन काल से ही विज्ञान में भारत की ताकत अटूट रही है

बेंगलुरु ।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया आईडियाज कॉन्क्लेव 2024 में कहा कि अगर हम 'ब्रांड भारत' बनाना चाहते हैं, तो हमें सही क्या है, इस बारे में पश्चिम के फरमानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हजारों साल से वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, शोषण की बात कभी नहीं उठी

और अचानक एक पारंपरिक उद्योग जैसे, मान लीजिए, कालीन बनाने के काम के लिए, आपको पश्चिम के खरीदारों से एक फरमान आया कि आप इन कालीनों को बनाने के लिए बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। हम इसे आपसे नहीं खरीदेंगे। सीतारमण ने कहा कि भारत में परिवार बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित किए बिना शिल्पकार बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक शिल्प बहुत कम

उम्र में नहीं सीखा जाता है, एक शिल्पकार कभी इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। ऐसे में हमें खड़े होकर कहना होगा कि हम उनकी शिक्षा का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर नैतिक उत्पादन के लिए जिस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, वे हमारी तरफ से अपने आप होने चाहिए, न कि पश्चिमी फरमानों के जारी होने के बाद किए जाने चाहिए। सीतारमण ने यह भी कहा

कि हमारे मंदिरों और हमारे प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का महत्व अभी की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। लोगों को यह बताने की जरूरत है कि प्राचीन काल से ही विज्ञान में भारत की ताकत अटूट रही है। सीतारमण ने कहा कि भारत के पास सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों की बदौलत ज्ञान का समृद्ध भंडार है। ये प्राचीन भारत के ब्रांड हैं, जिनका हम आज भी उल्लेख करते हैं।

## अदाणी ग्रुप को करना पड़ सकता है फंडिंग संकट का सामना

- कुछ बैंक अदाणी ग्रुप को नए कर्ज देने पर अस्थायी तौर पर लगा सकते हैं रोक

नई दिल्ली ।

गौतम अदाणी के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा 265 डॉलर मिलियन के कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तारी वारंट हुआ है जिसके बाद अदाणी ग्रुप को फंडिंग संकट की मुश्किलें सामने आ सकती हैं। क्रेडिट एनालिस्ट्स कहते हैं कि कुछ बैंक अदाणी ग्रुप को नए कर्ज देने पर अस्थायी तौर पर रोक लगा सकते हैं। अदाणी ग्रुप के बैंड्स में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। अदाणी के अंतरराष्ट्रीय कर्जदाता बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपने संस्थानों के भीतर कई बार बातचीत की है। चर्चा इस बात पर है कि इस मामले का अदाणी ग्रुप की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक रिसर्च फर्म ने कहा है कि अदाणी ग्रुप के ग्रीन एनर्जी कारोबार, जो इन आरोपों के केंद्र में है, के लिए रीफाइनेंसिंग सबसे बड़ी चिंता है। एक रेटिंग एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ग्रुप को अपनी बड़े पैमाने पर विस्तार योजनाओं के लिए नियमित रूप से इकट्ठी और कर्ज बाजार तक पहुंच की जरूरत होगी। हालांकि, मौजूदा स्थिति में



निवेशकों का भरोसा कमजोर हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय और कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंक और बैंड निवेशक अदाणी ग्रुप को एक इकाई के रूप में देखते हैं। वे ग्रुप पर अपने एक्सपोजर को सीमित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने अदाणी और सात अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य 20 वर्षों में 2 डॉलर बिलियन के लाभ वाले अनुबंध और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना हासिल करना था। अदाणी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताते हुए खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि वह कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी।

## आईआईएफसीएल की 60 करोड़ डॉलर जुटाने एडीबी, कोरियाई बैंक से चल रही बातचीत

- कंपनी राशि का इस्तेमाल निवेशक आधार को बढ़ाने और उधार लेने की लागत कम करने के लिए करेगी

नई दिल्ली ।

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और कोरियाई एफिजम बैंक के साथ बातचीत कर रही है। आईआईएफसीएल ने कहा कि वह इस राशि का इस्तेमाल अपने निवेशक आधार को बढ़ाने और उधार लेने की लागत कम करने के लिए करेगी। आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक पीआर जयशंकर ने यहां निवेशक सम्मेलन में कहा कि बातचीत अग्रिम चरण में है और समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईआईएफसीएल एक बार में पूरे 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर उधार लेने की इच्छुक है। हालांकि इतनी धनराशि की उपलब्धता उधार देने वाली एजेंसी पर निर्भर है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 20 करोड़ करोड़ डॉलर आ सकते हैं और बाकी राशि 2025-26 में आएगी।

## भारत में रक्षा क्षेत्र में बड़ा विस्तार: एमआरओ क्षेत्र में भारत की तैयारी

- घरेलू कंपनियां वैश्विक एरोस्पेस दिग्गजों के साथ मिलकर काम करेंगी

नई दिल्ली। भारत का रक्षा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में विस्तार के लिए तैयार है। इस क्षेत्र में विश्वस्तरीय एमआरओ केंद्र स्थापित करने के लिए घरेलू कंपनियों वैश्विक एरोस्पेस दिग्गजों के साथ मिलकर काम करेंगी। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों के निवेश और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) और एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) जैसी भारतीय कंपनियों के साथ क्रियाव्यवहन में बड़ी सहायता मिलेगी। भारत को एक क्षेत्रीय सैन्य विमानन रखरखाव केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उद्योग और नीतिगत सुधारों के बल पर अगले पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। भारत में रक्षा प्लेटफॉर्मों की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक रक्षा मूल उपकरण विमाताओं (आईएम) का समर्थन करने वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को बढ़ावा मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन के निदेशक निक रिमथ ने इस क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में भारत के लिए क्षेत्रीय स्थान साबित होने का दावा किया। एमआरओ क्षेत्र में होने वाले बड़े निवेश की उम्मीद है जो लाखों डॉलर का हो सकता है। भारत को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016, एमआरओ दिशानिर्देश 2021 और जीएसटी दरों में परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि विस्तार में कोई रूकावट न आए। इसमें जो चुनौतियां हैं, उन्हें दूर करके भारत एक गरिमामय रक्षा एमआरओ क्षेत्र बनाने की दिशा में बढ़-चढ़ कर बढ़ रहा है।

## सेंसेक्स और निफ्टी में सप्ताह भर रही तेजी

मुंबई ।

इस सप्ताह बैंकिंग शेयरों में खरीदारी, आईटी इंडेक्स में तेजी और एफएमसीजी इंडेक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक शेयरों में खरीदारी की वजह से शेयर बाजार में तेजी देखी गई। बुधवार 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वजह से घरेलू शेयर बाजार में कारोबार नहीं हुआ, जिससे इस सप्ताह केवल चार दिन ही शेयर बाजार खुले रहे। विदेशी फंडों की लगातार निकासी, आईटी शेयरों में बिकवाली और अमेरिकी बाजारों से कमजोर संकेत के कारण सोमवार को शुरुआती कारोबार में इक्रिटी बेंचमार्क सूचकांक फिर फिसल गए। बीएसई सेंसेक्स 511 अंक गिरकर 77,058 पर खुला और 241.30 अंक गिरकर 77,339.01 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 162 अंक गिरकर 23,370 पर खुला और 78.90 अंक गिरकर 23,453.80 पर बंद हुआ। मॉलवार को बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी से उछाल आया और सात सत्रों की गिरावट थम गई, इस दौरान एएसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 1044.89 अंक बढ़कर 78,383.90 पर खुला और 239.38 अंक की बढ़त के साथ 77,578.38 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50 304.50 अंक बढ़कर 23,758.30 पर खुला और 64.70 अंक की



बढ़त के साथ 23,518.50 अंक पर बंद हुआ। अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट और विदेशी फंड के निरंतर निकासी के बीच गुरुवार को शुरुआती कारोबार में इक्रिटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई।

शुरुआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 468.17 अंक गिरकर 77,110.21 अंक पर खुला और 422.59 अंक गिरकर 77,155.79 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 179.75 अंक गिरकर 23,338.75 अंक पर

खुला और 168.60 अंक गिरकर 23,349.90 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों के बावजूद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सुबह की शुरुआत में सेंसेक्स 750 अंक की तेजी के साथ 77,920 के स्तर पर खुला और 1,961.32 अंक चढ़कर 79,117.11 पर बंद हुआ। निफ्टी 230 अंक तेज होकर 23,580 के स्तर पर खुला और 23,900 अंकों के पार 557.35 अंकों की बढ़त के साथ 23,907.25 पर बंद हुआ।

## टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी

जिन एजेंसियों को डेटा इकट्ठा करने का अधिकार मिलेगा, उन्हें इसे गोपनीय तरीके से स्टोर करना होगा

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने साइबर सिक्वोरिटी बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत केंद्र सरकार अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से टेलीकॉम कंपनियों से ट्रैफिक डेटा या अन्य डेटा की मांग कर सकती है। यह डेटा संदेशों के कंटेंट के अलावा अन्य किसी फॉर्मेट में हो सकता है और इसे स्टोर और प्रोसेस करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा सकती है। नए नियमों के अनुसार जिन एजेंसियों को डेटा इकट्ठा करने का अधिकार मिलेगा, उन्हें इसे गोपनीय तरीके से

स्टोर करना होगा। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को एक साइबर पॉलिसी अपनानी होगी, जिसमें सिक्वोरिटी से संबंधित रिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिस्क असेसमेंट जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। टेलीकॉम कंपनियों को अब चीफ टेलिकम्युनिकेशंस सिक्वोरिटी ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। इस अधिकारी का काम सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के दौरान तत्काल उपाय करना होगा। सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना को केंद्र सरकार को 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही घटना की विस्तृत जानकारी जैसे पीडिट यूजरस की संख्या, स्थान



और घटनाओं का असर भी 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना होगा। नए नियमों के तहत भारत में बने या आयात किए गए सभी फोन

डिवाइस का आईएमआई नंबर रजिस्ट्रार करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य फर्जी डिवाइस और अवैध गतिविधियों को रोकना है।

## देश के विदेशी मुद्रा भंडार में

17.76 अरब डॉलर की गिरावट

- पिछले सप्ताह यह भंडार 6.47 अरब डॉलर घटकर 675.65 अरब डॉलर था

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त सप्ताह में 17.76 अरब डॉलर घटकर 657.89 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले सप्ताह यह भंडार 6.47 अरब डॉलर घटकर 675.65 अरब डॉलर था। सितंबर के अंत में भंडार 704.88 अरब डॉलर के उच्चस्तर पर था, फिर से उसमें पिछले कई हफ्तों से गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां भी 15.55 अरब डॉलर घटकर 569.83 अरब डॉलर रहें। इसमें उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियां शामिल हैं, जिनमें यूरो, पाउंड, और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राएं होती हैं। साथ ही स्वर्ण भंडार का मूल्य भी 2.07 अरब डॉलर घटकर 65.75 अरब डॉलर रहा और विशेष आहरण अधिकार 9.4 करोड़ डॉलर घटकर 18.06 अरब डॉलर पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 5.1 करोड़ डॉलर घटकर 4.25 अरब डॉलर पर आ गया। इन आंकड़ों की छटे संख्याक चिह्न है, जो देश की विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति को दर्शाते हैं।

## भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देगी

- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ाने और चीन पर निर्भरता घटाने भारत देगा 4-5 अरब डॉलर

नई दिल्ली ।

भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पुर्जों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। इस योजना के तहत सरकार 5 अरब डॉलर तक का प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग को मजबूत करना और चीन से आयात पर निर्भरता को कम करना है। दो सरकारी अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। पिछले छह सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन दुगुने से भी ज्यादा बढ़कर 2024 में 115 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियों की मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में बढ़ोतरी का बड़ा योगदान है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है। यहां तक कि इस सेक्टर की आलोचना इसके पुर्जों के आयात पर भारी निर्भरता के लिए की जा रही है, खासकर चीन जैसे देशों से। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह योजना तैयार की है। नई योजना से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे मुख्य पुर्जों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्थानीय सप्लाय चैन मजबूत होगा। यह योजना अगले 2-3 महीनों में लॉन्च की जा सकती है। इसमें वैश्विक या स्थानीय कंपनियों को 4-5 अरब डॉलर तक का प्रोत्साहन देने की उम्मीद है। इस योजना की अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय की जल्द ही मंजूरी देने की उम्मीद है। नीति आयोग के अनुसार, भारत का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें 150 अरब डॉलर के पुर्जों का निर्माण शामिल है। इस योजना के लॉन्च होने पर भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना है। सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के प्रमुख ओ धिकारी ने भी इस योजना की महत्वकांक्षा को साबित करते हुए कहा है कि यह योजना भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मंदी में बड़े लक्ष्यों की ओर अग्रसर कर सकती है। इसके लिए सरकार ने मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई है जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।



## अब फ्लाइट में देरी होने पर यात्रियों को मिलेगी राहत

- यात्रियों को विमान में बैठे रहने की बाध्यता नहीं होगी

नई दिल्ली। सदियों में उत्तर भारत में कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स समय पर उड़ान नहीं भर पाती हैं। इसे लिए अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यात्रियों को इन समस्याओं को कम करने के लिए एयरलाइंस पर सख्ती बढ़ा दी है। फ्लाइट डिले की स्थिति में यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए के निर्णय की जानकारी साझा की। निर्देशों के अनुसार नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने यात्रियों के लिए एक और बड़ी सुविधा दी है। यदि तकनीकी कारणों या खराब मौसम के कारण फ्लाइट में देरी होती है, तो यात्रियों को विमान में बैठे रहने की बाध्यता नहीं होगी। वे एयरपोर्ट पर आराम से इंतजार कर सकते हैं और फ्लाइट तैयार होने पर दोबारा विमान में चढ़ सकेंगे। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ डिले की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ये प्रावधान यात्रियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और लंबे इंतजार के दौरान उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं।

## गुजरात के जीएसटी विभाग ने 3.53 करोड़ की कर चोरी पकड़ी

- कंपनियां वास्तविक आय को छिपा रही थीं

अहमदाबाद । गुजरात राज्य जीएसटी विभाग ने सात वार्षिक संस्थाओं की तलाशी के दौरान 3.53 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया। एक अधिकारी ने कहा कि ये कंपनियां वास्तविक आय को छिपा रही थीं, बिना चालान के बिक्री कर रही थीं और कर देनदारी को कम करके दिखा रही थीं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य में उपभोक्ताओं के साथ लेनदेन करने वाली संस्थाओं (बी2सी) द्वारा माल और सेवा का (जीएसटी) की चोरी की आशंका में सात परिसरों में तलाशी ली गई थी। बयान में कहा गया कि इन फर्मों में अहमदाबाद के दो बैटरी डीलर, डांग जिले के वाघई में चार तंबाकू डीलर और नाडियाद के खेड़ा शहर में एक सैलून शामिल हैं।

## अपाचे आटीआर 160 4वीं का अपडेटेड वर्जन लांच

नई दिल्ली । भारतीय बाजार में टीवीएस अपाचे आटीआर 160 4वीं का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस एडवांस वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत रूपए 1.40 लाख रखी गई है। इस बाइक में 159.7सीसी का ऑयल-कूल्ड प्यूल-इंजिन 4-वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 17.55 पीएस की पावर और 14.73 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन अपनी स्थिति परफॉर्मंस और शानदार माइलेज के लिए जाना जाता है। बाइक में 37एमएम का यूएसडी फोर्क और तीन राइडिंग मोड्स - स्पोर्ट, अर्बन और रेन दिए गए हैं, जिससे अलग-अलग कंडीशंस में बेहतर राइडिंग अनुभव मिलता है। अपाचे आटीआर 160 4वीं टीवीएस की स्पोर्ट एक्सोनेट तकनीक दी गई है, जो बाइक को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की सुविधा देती है। इसके जरिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और एसएमएस अलर्ट, और वॉयस असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसमें जीटीटी (ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक) तकनीक दी गई है, जो ट्रैफिक में स्थिर राइडिंग में मदद करती है। बाइक में ड्यूल-चैनल एबीएस, एलईडी हेडलाइट, टेललैंप, और नया बुलपुप एग्जॉस्ट दिया गया है। टीवीएस मोटर्स के प्रीमियम बिजनेस हेड विमल सुबले ने कहा, टीवीएस अपाचे आटीआर 160 4वीं भारतीय बाजार में प्रदर्शन मोटर्स/साइकिलों का मानक है। यह नई बाइक अतः तकनीक और स्टाइल के साथ हमारे ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करेगी। हम प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी और डिजाइन के इस नए स्तर से उत्साहित हैं। टीवीएस अपाचे आटीआर 160 4वीं नई सुविधाओं और दमदार परफॉर्मंस के साथ उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो स्टाइल और तकनीक का परफेक्ट मिश्रण चाहते हैं।



# बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी: जायसवाल-राहुल के नाबाद अर्धशतक, भारत की पकड़ मजबूत

## दूसरी पारी में बगैर किसी नुकसान के बनाए 172 रन, कुल 218 रन की बढ़त

**पर्थ (एजेंसी )**। कप्तान जसप्रीत बुमराह 30 रन पर 5 विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद यशस्वी जायसवाल (नाबाद 90) और केएल राहुल (नाबाद 62) के शानदार अर्धशतकों की बदौलत भारत ने पहले टेस्ट मैच में दूसरे दिन पकड़ मजबूत कर ली। भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 172 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को कुल 218 रनों की बढ़त ले ली। भारत ने पहली पारी में 46 रन की बढ़त हासिल की थी। सुबह ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर समेटने के बाद भारतीय ओपनर्स ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को शिकट के लिए तरसा दिया। जायसवाल ने 193 गेंदों पर 90 रन में 7 चौके और 2 छक्के लगाए हैं, जबकि राहुल ने 153 गेंदों पर 62 रन में 4 चौके लगाए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने काफी

सतकता के साथ बल्लेबाजी की और 3.01 के रन रेट से रन बनाए। दोनों ने 57 ओवर में 172 रन की अविजित साझेदारी की है। पहली पारी में जायसवाल शून्य और राहुल 26 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने साहसिक बल्लेबाजी की। भारत ने अब तक मैच में अपना दबदबा बनाए रखा है। पहले दिन जहां गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरे दिन बल्लेबाजों ने अपनी भूमिका निभाई। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के सात विकेट पर 67 रन से आगे खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट जल्दी ही गंवा दिए और उसका स्कोर नौ विकेट पर 79 रन हो गया।

**बुमराह ने 11वीं बार लिए पांच विकेट**

बुमराह ने 11वीं बार अपने टेस्ट करियर में

एक पारी में 5 विकेट हासिल किए। बुमराह ने एलेक्स कैरी को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। कैरी ने 21 रन बनाये। बुमराह का यह पांचवां विकेट था। उन्होंने शुरुआत को चार विकेट लिए थे। हर्षित राणा ने नाथन लियोन को स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया का नौवां विकेट झटका। लेकिन इसके बाद मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने आखिरी विकेट के लिए 25 रन की साझेदारी कर मेजबान टीम को 100 के पार पहुंचाया। राणा ने स्टार्क को पंत के हाथों लपकवा कर ऑस्ट्रेलिया की पारी 104 रनों पर समेट दी। स्टार्क ने 112 गेंदों पर उपयोगी 26 रन बनाए, जो उनकी टीम की तरफ से सर्वाधिक स्कोर रहा। हेजलवुड सात रन पर नाबाद रहे। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज को 20 रन पर दो विकेट और राणा को 48 रन पर तीन विकेट मिले।



## प्रतिबंध के कारण आईपीएल 2025 का पहला मैच नहीं खेल पायेंगे पंड्या



**मुंबई (एजेंसी)**। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या आईपीएल 2025 का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। पंड्या पर एक मैच का प्रतिबंध लगा है। ऐसे में पहले मैच में मुंबई इंडियंस को किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनाना होगा। पंड्या पर ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि वह पिछले आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान थे और तब टीम अपना अंतिम मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलत हुए तय समय पर ओवर पूरे नहीं कर पाया था। इस प्रकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीएसआई) के नियमों के

अनुसार, पंड्या को एक मैच का प्रतिबंध झेलना होगा, चाहे वह किसी नई टीम से भी जुड़ जायें।

मैच में ओवर समय पर पूरा नहीं करने की वजह से पंड्या पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा था, जबकि अन्य इंपैक्ट खिलाड़ी सहित अंतिम - 12 पर 12 लाख या मैच फीस का 50 फीसदी का जुर्माना लगा था। बता दें कि टूर्नामेंट में यह तीसरा मौका था, जबकि पंड्या की कप्तानी वाली टीम समय पर खेलत हुए तय समय पर ओवर पूरे नहीं कर पाया था। इस प्रकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीएसआई) के नियमों के

## ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एकादश की कप्तानी करेंगे एडवर्ड्स, बोलेड शामिल

पर्थ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने तेज गेंदबाज स्कॉट बोलेड को भारत के खिलाफ 30 नवंबर से केनबरा में शुरू हो रहे दो दिवसीय अन्धकार मैच के लिये प्रधानमंत्री एकादश में शामिल किया है। इस टीम का कप्तान न्यू साउथवेल्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को बनाया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री

एकादश के इस मैच से दोनों ही टीमों को एडीलेड में छह दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट की तैयारी का अवसर मिलेगा। भारतीय टीम करीब तीन साल बाद यहां दिन रात का टेस्ट खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेले ने कहा, 'हम टेस्ट टीम की तैयारी के तहत ही बोलेड की मैच फिटनेस का पता लगाने के लिए उन्हें यह अवसर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री एकादश में पिछले साल अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली टीम में शामिल हरे सैम कोसास, माहली बीयर्डमैन, चार्ली एंडरसन और एडान ओकोनोर को भी जगह मिली है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में प्रधानमंत्री एकादश का समृद्ध इतिहास रहा है। इसलिए मुझे इच्छा है कि टीम की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा, 'भारतीय टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से है जिसके पास विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हैं। इस टीम के लिए खिलाफ खेलने का अनुभव यादगार होगा।

टीम इस प्रकार है - जैक एडवर्ड्स (कप्तान), चार्ली एंडरसन, माहली बीयर्डमैन, स्कॉट बोलेड, जेक वलेंटन, एडन ओकोनोर, ओली डेविस, जेडन गुडिन्ग, सैम हार्पर, हार्जो जैकब्स, सैम कोस्टास, लॉयड पोप, मेथ्यू रेनार्डो, जेम रियान।

## अर्शदीप बन सकते हैं सबसे महंगे गेंदबाज: चोपड़ा

**नई दिल्ली (एजेंसी)**। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज अकाश चोपड़ा ने बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जमकर प्रशंसा की है। चोपड़ा ने कहा है कि अर्शदीप को इस बार आईपीएल 2025 के लिए होने वाली मेगा नीलामी में



18 से 20 करोड़ रुपये की मोटी रकम मिल सकती है। ऐसे में वह सबसे महंगे गेंदबाज बन जाएंगे। अर्शदीप ने भारतीय टीम की ओर से अबतक टी20 मुकामलों में 95 विकेट लिए हैं। उन्होंने साल 2019 के बाद से पंजाब किंग्स की ओर से 65 मैचों में 76 विकेट लिए हैं। इस बार पंजाब किंग्स ने नीलामी से पहले ही उन्हें हिलीज

कर दिया था। ऐसे में 24 और 25 नवंबर को जेद्दा में होने वाली नीलामी के दौरान अर्शदीप पर सभी 10 टीमों बोली लगा सकती है। चोपड़ा ने कहा कि इससे अर्शदीप को 18 से 20 करोड़ मिल सकते हैं, जिससे वह नीलामी में सबसे महंगे गेंदबाज बन जाएंगे। दबाव में वह शानदार गेंदबाजी करते हैं और यही उनका सकारात्मक पक्ष है। वहीं पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा का मानना है कि अर्शदीप को 10-15 करोड़ की रकम मिल सकती है। उन्हें यह भी लगता है कि ट्रेडेंट बोल्ट और हर्षल पटेल के लिए सभी 10 टीमों बोली लगाएंगी। उन्होंने कहा कि बोल्ट नई गेंद से उच्छ्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हर्षल एक भारतीय हैं और पुरानी गेंद से खेलने का कौशल उन्हें आईपीएल में मूल्यवान खिलाड़ी बनाता है। उथप्पा का मानना है कि पंजाब किंग्स के साथ आईपीएल 2024 सीजन में कमजोर प्रदर्शन के बाद भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर सैम कुरेन पर नीलामी में मोटी रकम लगेगी। कुरेन को लेने के लिए केकेआर और आरआर जैसी टीमों भी बोली लगा सकती है।

## बुमराह ने पंच से तोड़ा कपिल का रिकॉर्ड

**नई दिल्ली (एजेंसी)**। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शनिवार को पर्थ में खेले जा रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में पांच विकेट लेते हुए एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। बुमराह ने सेना देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में सातवां बार पांच विकेट लेने का कारनामा करते हुए वे महान भारतीय तेज गेंदबाज कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के दौरान सेना परिस्थितियों में भारत के सर्वकालिक महान गेंदबाज के रूप में अपनी विरासत में एक और उपलब्धि जोड़ ली। ऐतिहासिक रूप से सेना देशों में भारत का रिकॉर्ड कमजोर रहा है और 2000 के दशक में टीम ने रिकॉर्ड में सुधार किया है। कपिल देव के बाद जसप्रीत बुमराह भारत के दूसरे तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने सेना देशों में सबसे ज्यादा 7 बार 5 प्लस विकेट लिए हैं। एक तरह इस मामले में जहां बुमराह ने कपिल की बराबरी की है। वहीं दूसरी ओर बुमराह ने सबसे तेजी से इस कमाल को करने में कपिल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। सेना देशों में 7 बार 5 प्लस विकेट लेने के लिए बुमराह ने जहां सिर्फ 51 पारियां खेली, वहीं कपिल देव ने ऐसा 62 पारियों में किया था। अब सेना देशों में 27 टेस्ट में बुमराह ने



22.55 की औसत से 118 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/33 रहा है। उन्होंने कुल सात बार पांच विकेट लिए हैं। उन्होंने कपिल सात के साथ बराबरी की है और बीएस चंद्रशेखर, जहीर खान (छह बार पांच विकेट) और बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले (पांच बार पांच विकेट) का नंबर आता है। टेस्ट मैचों में पांच विकेट लेने वाले बुमराह पांचवें भारतीय कप्तान हैं,

उन्से पहले वीनू मांकड़ (एक), बिशन (आठ), कपिल (चार) और कुंबले (दो) ने ऐसा किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले आखिरी भारतीय कप्तान कुंबले थे, जिन्होंने 2007 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में यह कारनामा किया था। बुमराह ने जोहान्सबर्ग, मेलबर्न, नॉटिंगहम, नॉर्थ साउंड, किंग्स्टन, केपटाउन, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम और पर्थ में पांच विकेट लिए हैं।

## सुनील गावस्कर ने फर्जी लेख पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

**नई दिल्ली।** भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक क्रिकेट वेबसाइट पर उनके नाम से लेख लिखे जाने का फुजोर खंडन किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। वेबसाइट क्रिकेट सेशन ने शुरुआत शाम को 'नेतृत्व में एक नया युग-बुमराह की कप्तानी और कोहली के नेतृत्व ने टीम इंडिया को पुनर्जीवित किया' शीर्षक से एक कॉलम प्रकाशित किया, जिसमें झूठा दावा किया गया कि यह पूर्व कप्तान द्वारा लिखा गया था। गावस्कर ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर इस मुद्दे को संबोधित किया, एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लेख से कोई संबंध नहीं है और इसे तुरंत हटाने की मांग की। क्रिकेट के दिग्गज ने वेबसाइट से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को भी कहा, चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में गावस्कर ने कहा, 'हाय, मैं सुनील गावस्कर हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट सेशन नामक एक वेबसाइट है, जिसने मेरे नाम से एक लेख छपा है। मुझे कहना होगा कि यह पूरी तरह से फर्जी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं उस वेबसाइट से कहना चाहता हूँ कि इसे तुरंत हटा दें। माफ़ी मांगो। अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो मैं इस मामले को अपनी कानूनी टीम को सौंप दूंगा। इसलिए जो कुछ भी तुमने पढ़ा है, उस पर एक शब्द भी यकीन मत करो। यह मेरे नाम से लिखा गया एक पूरी तरह से फर्जी लेख है।'



## तिलक वर्मा ने 11 दिनों में तीसरा शतक जड़ रचा इतिहास

**राजकोट (एजेंसी)**। भारतीय टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ हैदराबाद की ओर से खेलते हुए इतिहास रच दिया है। मैच में तिलक वर्मा ने विस्फोटक शतक लगाकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। तिलक पुरुष या महिला क्रिकेट में 11 दिनों के अंतराल में तीन लगातार शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 2007 में शुरू हुए टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी अपने नाम किया है। मैच के दौरान तिलक ने सिर्फ 67 गेंदों में 14 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 225.37 रहीं। 22 वर्षीय तिलक ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 शतक, सेंचुरियन में 107 रन और जोहान्सबर्ग में नाबाद 120 रन बनाए थे। वह

टी20 क्रिकेट में 150 से अधिक स्कोर बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी बने। इससे पहले महिला क्रिकेट में किरण नवगिर ने महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए 2022 में सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में नागालैंड के लिए खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 162 रन बनाए थे। तिलक ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तेज गेंदबाज दीपू संय्या की 18 गेंदों में छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने इससे पहले 2019 में सिक्किम के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए 71 गेंदों में 7 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 147 रन बनाए थे। तिलक रविवार से सोमवार तक होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन की मेगा नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस द्वारा रिटर्न किए गए पांच खिलाड़ियों में से एक हैं।



## आईसीसी ने 26 नवंबर को क्यों बुलाई आपात बैठक... इसके पीछे कारण भारतीय टीम तो नहीं

**दुबई।** आईसीसी ने 26 नवंबर को अपने बोर्ड की आपात बैठक बुलाई है, इसमें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पर होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक का एकमात्र एजेंडा यह है कि क्या टूर्नामेंट के लिए हाइड्रिड मॉडल अपनाया जाए, जिसमें पाकिस्तान और किसी अन्य देश में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाए। टूर्नामेंट की संभावित शुरुआत से 100 दिन से भी कम समय बचा है। मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टूर्नामेंट को 19 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित करने के लिए निर्धारित किया है। हालांकि आईसीसी ने अभी तक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया है। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को सूचित किया है कि भारत सरकार ने रोहित शर्मा की टीम को पाकिस्तान यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा था कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित होने को लेकर सकारात्मक अपेक्षाएं हैं। नकवी पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्रालय के प्रमुख भी हैं, उन्होंने कहा कि वह बीसीसीआई से गतिरोध को तोड़ने के लिए संवाद करने के लिए तैयार हैं। पीसीबी आईसीसी से इस बात का जवाब पाने का इंतजार कर रहा है कि भारत को पाकिस्तान यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब पाकिस्तान को भारत की वजह से टूर्नामेंट को हाइड्रिड मॉडल पर आयोजित करने के प्रश्न से जूझना पड़ा है। पिछले वर्ष एशिया कप के लिए भी भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया था, इस कारण टूर्नामेंट को हाइड्रिड मॉडल पर पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित करना पड़ा था। इसके ठीक बाद पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा करने की पड़ी थी, पीसीबी ने हाल ही में कहा था कि उसने यह फैसला इसलिए किया था ताकि इसके चलते उसे चैंपियंस ट्रॉफी केवल पाकिस्तान में ही आयोजित किए जाने का ठोस आधार मिलेगा।

# आईपीएल मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत पर बरसेंगे 25 करोड़? नीलामी में इन खिलाड़ियों पर भी बरस सकता है पैसा

**बेंगलुरु (एजेंसी)**। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को होनी है। इस नीलामी में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं इस नीलामी में 57 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। आईपीएल की दस टीमों के पास 641.5 करोड़ रुपये का पर्स है और 204 संभावित चयन होने बाकी है। ऐसे में सभी की नजरें पंत के नाम पर लगी होंगी। पंजाब किंग्स के पास सभी टीमों में से सबसे ज्यादा 110.50 करोड़ रुपये हैं जबकि आरसीबी के पास 83 करोड़ रुपये हैं। बता दें कि, दिल्ली कैपिटल्स के पास 73 करोड़ रुपये और राइट टू मैच कार्ड है, जिससे वे अपने पूर्व कप्तान को खरीद सकते हैं। वैसे समझा जाता है कि पंत नहीं चाहते कि दिल्ली आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करे

क्योंकि अलग होते संबंधों में दरार आ गई थी और पंत खुद को अब टीम का हिस्सा नहीं मानते। उन्होंने कहा भी था कि मेरा रिश्तियां पैसे को लेकर नहीं थी। ये तय है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पंत 25 करोड़ रुपये पर करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस के पास महज 45 करोड़ रुपये हैं और वे उन्हें इस कीमत पर खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे। हर दो साल में टीम बदलने के लिए महेश्वर पंजाब किंग्स के पास काफी पैसा मौजूद है और मुख्य कोच रिकी पॉटिंग अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ फिर एकजुट होना चाहेंगे। नीलामी के लिए 81 खिलाड़ियों का बेसप्राइज दो करोड़ रुपये है। मौजूदा क्रिकेटर एक मिलियन डॉलर यानी 8.5 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकते हैं।

वहीं अभी तक 96 टी20 इंटरनेशनल विकेट ले चुके अर्शदीप सिंह पर भी बड़ी बोली लग सकती है। पंजाब के पास आरटीएम कार्ड है लेकिन कहां तक जाती है। तेज गेंदबाजों की भी काफी मांग होगी जबकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को छोड़कर भारत के लगभग सभी स्टार क्रिकेटर लिए जा चुके हैं। अय्यर कप्तानी के लिए दिल्ली को पसंद हो सकते हैं। आरसीबी, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के लिए तीन संभावित कप्तान पंत, राहुल या अय्यर हो सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों में इशान किशन भी प्रमुख होंगे लेकिन नया बल मुंबई इंडियंस उन्हें पिछली बार की तरफ 15 करोड़ रुपये में खरीदने की स्थिति में नहीं है। मोहम्मद शमी पर भी नजरें रहेंगी जो सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं।



## स्टार्क ने हर्षित पर कसा तंज, जायसवाल ने सुनाई खरी-खरी

पर्थ। टेस्ट मैच के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में शनिवार को मामूली नॉकड्रोक हुई। दूसरे दिन का मैच शुरू होते ही बल्लेबाजी करने आए मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी कर रहे हर्षित राणा पर तंज कसा था। भारतीय टीम को जब बल्लेबाजी मिली तो सलामी बल्लेबाजी जायसवाल ने भी स्टार्क को खरी-खरी सुना दी। 21 वर्षीय जायसवाल से बाते सुनकर स्टार्क ने भले ही शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर इसे जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि शुरुआत स्टार्क ने ही की थी। उन्होंने पहली पारी में 112 गेंद खेलते हुए 26 रन बनाए थे ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 रन पार हो सके। भारतीय गेंदबाजों के बाऊंसर के आगे स्टार्क ने कई रक्षात्मक शॉट खेले। इसी दौरान हर्षित की एक गेंद ने स्टार्क को परेशान किया तो उन्होंने उसे चिढ़ाने के लिए बोल दिया। 'मैं तुमसे ज्यादा तेज गति से गेंद फेंक लेता हूँ, और मैं इसे याद रखूंगा। हर्षित ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मुस्कुराते हुए अपने रनअप की ओर चले गए। ऑस्ट्रेलिया जब 104 रन पर सिमट गई तो भारत की ओर से जायसवाल के साथ केएल राहुल ओपनिंग के लिए आए। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का जमकर सामना किया और विकेट नहीं जाने दिया। शुरुआती ओवरों में विकेट न मिलने से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज निराश दिखे। इस दौरान गेंदबाजी कर रहे स्टार्क बार-बार जायसवाल को घूरने लगे। आखिरकार जायसवाल से रहा नहीं गया, उन्होंने एक गेंद के बाद स्टार्क को बोला - आपकी गेंद की गति ज्यादा नहीं है। निमित्त रूप से स्टार्क द्वारा हर्षित को कसे तंज से जायसवाल निराश दिखे और उन्होंने बेबाकी से स्टार्क को असलियत दिखाने की कोशिश की।





## करण जौहर ने 'बागी 4' के लिए टाइगर श्रॉफ को दी शुभकामनाएं, साजिद को बताया दूरदर्शी

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म 'बागी 4' की घोषणा इसके पहले पोस्टर के साथ कर दी है। यह फिल्म टाइगर श्रॉफ अभिनीत बागी की चौथी किस्त है। फिल्म के पहले पोस्टर के सामने आने के बाद करण जौहर ने शुभकामनाएं दी हैं। करण ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा करते हुए लिखा, दूरदर्शी साजिद...नाडियाडवाला और टाइगर जैकी श्रॉफ के साथ उनके घातक संयोजन और एक ब्लॉकबस्टर यात्रा की शुरुआत के लिए बधाई। करण के इस पोस्टर से लगता है कि वह इस फिल्म के लिए उत्साहित हैं।



### टाइगर श्रॉफ का दिखा खूंखार अंदाज

सोमवार को निर्माताओं ने बागी 4 से टाइगर श्रॉफ का दिलचस्प पोस्टर साझा करते हुए फिल्म की घोषणा की। पोस्टर में टाइगर हाथ में चाकू और पास में शराब की बोतल लिए टॉयलेट सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनका चेहरा, दीवारों और फर्श खून से सना हुआ है। जबकि उनके चारों ओर कई शव पड़े हैं। बागी 4 का निर्देशन कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्षा करेंगे, यह उनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन बैनर तले किया है और यह 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

### बागी फेंचाइजी

बागी फेंचाइजी की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसका निर्देशन सब्बीर खान ने किया था। फिल्म में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू मुख्य भूमिकाओं में थे। दूसरी किस्त, बागी 2 वर्ष 2018 में आई थी। अहमद खान द्वारा निर्देशित यह तेलुगु फिल्म क्षणम की रीमेक थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी, मनोज बाजपेयी और रणदीप हुड्डा भी नजर आए थे।



## ये काली काली आंखों के साथ ओटीटी पर लौट रही हैं श्वेता त्रिपाठी

अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी फिर लौट आई हैं। मिर्जापुर, मसान में उनकी काली काली आंखों ने खूब जलवा दिखाया और अब जिस कहानी के साथ वह ओटीटी पर लौट रही हैं, उसका तो नाम ही है, ये काली काली आंखें। इस सीरीज के दूसरे सीजन में उनके किरदार पर ही लोगों की निगाहें टिकने वाली हैं क्योंकि बाकी सारे किरदार इस कहानी में अपने पते पिछले सीजन में ही खोल चुके हैं।

श्वेता त्रिपाठी कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे किरदार मुझे से अलग हों और एक-दूसरे से भी अलग हों। मुझे वे दांव पसंद हैं जो उच्च ड्रामा के साथ आते हैं, जहां प्रत्येक किरदार की यात्रा गहन और प्रभावशाली लगती है। ये काली काली आंखें में शिखा का किरदार मेरे किरदार से बहुत अलग है और मैं उसकी दुनिया में कदम रखने की चुनौती का आनंद लेती हूँ। सीरीज ये काली काली आंखें के बारे में उनका



## शादी की खबरों पर मीनाक्षी चौधरी ने चुप्पी तोड़ी

मीनाक्षी चौधरी साउथ की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। वर्तमान में अभिनेत्री के पास कई फिल्मों हैं। हाल ही में उनकी फिल्म मटका रिलीज हुई, जिसमें वे साउथ अभिनेता वरुण तेज के साथ नजर आईं। हालांकि, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुकामले प्रदर्शन नहीं किया। वहीं, अब अभिनेत्री अपनी अगली फिल्मों की तैयारियों में व्यस्त हो गई हैं। इस बीच अभिनेत्री की शादी की चर्चाओं ने भी तूल पकड़ा। वहीं, अब खुद मीनाक्षी ने अपनी शादी की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है।

### नागार्जुन के भतीजे को मीनाक्षी कर रहीं डेट?

दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया एक अफवाह उड़ी कि नागार्जुन के भतीजे सुशांत मीनाक्षी चौधरी से शादी करने वाले हैं। इस जोड़ी ने फिल्म इचता वाहनमुलु निलुपुराधु में काम किया था। यह अफवाह क्यों और कैसे उड़ी, इसका कोई कारण नहीं पता, लेकिन यह वायरल हो गई। दावा किया गया कि वे नागार्जुन के भतीजे सुशांत को डेट कर रही हैं और अब शादी करने वाली हैं।

### शादी की खबरों को बताया झूठा

मीनाक्षी चौधरी की इस साल की छठी फिल्म मैकेनिक रॉकी जल्द ही रिलीज होने वाली है। अभिनेत्री फिल्म के प्रचार में जुटी हुई हैं। हालांकि, कल रात मैकेनिक रॉकी के प्री-रिलीज इवेंट के

दौरान मीनाक्षी ने इस बात को साफ कर दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने भी ये अफवाहें सुनी हैं और उनका सख्त रूप से खंडन किया है। साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों का हिस्सा होने की खबरों का भी खंडन किया।

### सिंगल हैं अभिनेत्री

मीनाक्षी ने आखिरकार स्पष्ट किया कि वह शादी नहीं कर रही हैं। मीनाक्षी ने कहा, यह एक अफवाह है और मैं शादी नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये अफवाहें क्यों उड़ती हैं। एक दिन, मैंने पढ़ा कि मैं सालार का हिस्सा हूँ और दूसरे दिन, मैंने पढ़ा कि मैं विशंभरा का हिस्सा हूँ। अभिनेत्री ने यह भी पुष्टि की कि वह फिलहाल सिंगल हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिलहाल सिंगल हूँ, लेकिन अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ।

### मीनाक्षी की आने वाली फिल्मों

वहीं, बात करें मीनाक्षी चौधरी की आने वाली फिल्मों के बारे में तो वे विक्ट्री वेंकटेश के साथ संक्रांतिकी वस्तुत्रम के लिए काम कर रही हैं, जो संक्राति 2025 के दौरान एक भव्य रिलीज के लिए तैयार है। उन्होंने नागा चैतन्य के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मैकेनिक रॉकी इस महीने की 22 तारीख को सिनेमाघरों में आ रही है। श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

कहना है, ये शो वास्तव में सवाल पूछता है कि आप प्यार के लिए कितनी दूर तक जाएंगे? इस सीजन में शिखा खुद को इसी यात्रा पर पाती है, और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो दर्शकों को गहराई में ले जाएगा और डराएगा भी। इस सीजन में, दर्शकों को मेरे किरदार का एक स्त्री और कमजोर पक्ष दिखाई देगा, फिर भी वह उग्र और दृढ़ है। यह जीवन में एक

रोमांचक संतुलन है। ये काली काली आंखें के दूसरे सीजन का नेटवर्क पर खास प्रचार प्रसार तो नहीं हो रहा है लिहाजा इसके कलाकार अपनी बातें अपनी टीम के जरिये ही दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज का पहला सीजन भी कुछ खास नहीं रहा। लेकिन, हां श्वेता को लोगों ने पसंद किया। इस बार भी वह कुछ नए कांड इस सीरीज में करने वाली हैं। सीरीज में अपने किरदार के बारे में भी श्वेता ने खुलासा कर दिया है। वह बताती हैं, शिखा की दुनिया तब तबाह हो जाती है जब उसका सच्चा प्यार विक्रांत पूर्वा से शादी कर लेता है, जिससे वह खोई हुई और निराशा महसूस करती है। स्वभाव से डरपोक और गैर-संघर्षशील, वह शुरू में दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी सीमा को पार करने से बचती है। इस सीजन में शिखा का एक नया पक्ष सामने आने वाला है क्योंकि वह विक्रांत के साथ अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला करती है।

## जारी हुआ अग्नि का ट्रेलर फायरमैन के किरदार में प्रतीक गांधी

अग्नि का ट्रेलर सोशल मीडिया पर जारी हो गया है। 2 मिनट 43 सेकंड के ट्रेलर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के संघर्ष की कहानी को अलग तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में प्रतीक गांधी फायर ब्रिगेड कर्मचारी की भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं, मिर्जापुर के मुन्ना भैया यानी दिव्येंद्रु को पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। ट्रेलर की शुरुआत में कहा जाता है कि जब आग लगती है तो हम किसें बुलाते हैं...बच्चे कहते हैं भगवान को। तो फायर ब्रिगेड कर्मचारी पूछता है, और किसें तो जवाब आता है फायर ब्रिगेड को। फिल्म के ट्रेलर में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के जीवन की कहानी बयां की जा रही है, जिसमें प्रतीक गांधी अहम रोल निभा रहे हैं।



## एक फिल्म के अंदर गुड्डू पंडित को ढालने को लेकर निश्चित नहीं हैं अली

मिर्जापुर अमेजन प्राइम वीडियो की बेहद लोकप्रिय और सफल वेब सीरीज है। हाल में इस पर फिल्म बनाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद से फैंस अपने पसंदीदा किरदारों को फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए काफी बेकरार हैं। हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान सीरीज में गुड्डू भैया के किरदार में नजर आए अभिनेता अली फजल ने इसे लेकर बात की है। उन्होंने अपने किरदार की फिल्मी रूपांतरण पर संदेह जताते हुए कहा कि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि एक फिल्म के अंदर किस तरह से उनके इस किरदार को समायोजित किया जा सकेगा। अभिनेता ने मिर्जापुर फिल्म को लेकर कहा कि अब तीनों सीजन की वीजे को नए प्रारूप में ढाल कर एक फिल्म के अंदर लाना काफी चुनौती भरा होगा। उन्होंने कहा कि वो इसे लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। उन्होंने कहा, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी इस नए प्रारूप में कैसे सामने आती है। उन्होंने फिल्म को लेकर उत्सुकता जताते हुए कहा कि यह टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दौरान उन्होंने लोकप्रिय बॉलीवुड सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग उस समय ही इस शो को भी फिल्म के रूप में रूपांतरित करने की घोषणा की गई थी।

### बड़े पर्दे पर तीनों सीजन की कहानी को फिट करना होगी चुनौती

अपने किरदार को लेकर बात करते हुए अली फजल ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी भूमिका को और कितना आगे बढ़ाया जा सकता है, यह देखते हुए कि कई पहलुओं पर पहले ही काम किया जा चुका है। अभिनेता ने यह भी चर्चा की कि निर्माताओं के लिए उनके इतने बड़े किरदार को पर्दे पर फिट करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। अभिनेता ने कहा, अब लक्ष्य तीनों सीजन की कहानी को एक या दो घंटों के संक्षिप्त सिनेमाई अनुभव में बदलना है, जो काफी चुनौतीपूर्ण है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी इस नए प्रारूप में कैसे सामने आती है। हाल ही में, निर्माताओं द्वारा मिर्जापुर फिल्म की घोषणा करते हुए पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंद्रु और अभिषेक बनर्जी की झलक दिखाई गई थी। फरहान अख्तर द्वारा साझा किए गए इस वीडियो जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि मिर्जापुर-2 फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में आएगी। फरहान ने अपने पोस्टर के कैप्शन में लिखा, अब भौकल भी बड़ा होगा और पर्दा भी। मिर्जापुर-2 फिल्म, जल्द ही आ रही है।

### ऋतिक रोशन के कालीन भैया के किरदार में नजर आने की है अफवाह

फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर अफवाहों को दौर भी शुरू हो गया है। ऐसी ही एक अफवाह में कहा जा रहा है कि मिर्जापुर फिल्म में कालीन भैया की भूमिका में पंकज त्रिपाठी की जगह ऋतिक रोशन को लिया जाएगा। यह फिल्म मिर्जापुर की दुनिया में और गहराई से उतरेगी, जिसके तहत इसके मूल किरदार अपनी लोकप्रिय भूमिकाओं को दोबारा से निभाते हुए नजर आएंगे। बताते चलें कि मिर्जापुर-2 फिल्म को अमेजन एमजीएम स्टूडियो और एक्सले एंटरटेनमेंट द्वारा समर्थित किया गया है। वहीं, फिल्म का निर्माण पुनीत कृष्णा ने किया है और गुरमीत सिंह इसका निर्देशन करने वाले हैं।

## शाहिद कपूर के साथ मतभेद की अटकलों पर बोले अनीस बज्मी

अनीस बज्मी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म भूल भुलैया 3 की सफलता का आनंद ले रहे हैं। हाल में ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था कि शाहिद और रश्मिका मंदाना के साथ अनीस बज्मी की कॉमेडी फिल्म अगस्त 2023 में शुरू होने वाली थी, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण कपूर के बाहर चले जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया।

### न किसी से दुश्मनी है न नाराजगी

न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक ने बंद हो चुकी कॉमेडी फिल्म के लिए शाहिद कपूर के साथ फिर से जुड़ने का संकेत दिया है। निर्देशक ने कहा, मेरे दिमाग में अभी भी वह फिल्म है। इस

दौरान उन्होंने शाहिद के साथ फिर से काम करने को लेकर उत्साह व्यक्त किया और उनकी प्रतिभा की प्रशंसा भी की इस दौरान उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके बीच कोई मतभेद या दुश्मनी नहीं है। निर्देशक के इस बात से दोनों को लेकर भविष्य में साथ काम करने की संभावनाएं जाहिर होती हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा, मुझे किसी से न दुश्मनी है न नाराजगी।

### स्पष्ट बातें भ्रम से बचाने में मददगार होती हैं

अनीस बज्मी ने विवाद की अफवाहों को संबोधित करते हुए बताया कि फिल्म निर्माण के लिए आपसी समझ और ईमानदारी की आवश्यकता होती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट बातें भ्रम से बचने में काफी मददगार होती हैं। अपनी खुद की कार्यशैली को स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा कि वर्षों के अनुभव के बाद, उनके लिए अपना दृष्टिकोण बदलना अब काफी चुनौतीपूर्ण है।

### साथ आएंगे तो, बेहतर फिल्म ही बनाएंगे

अनीस बज्मी ने आगे कहा कि शाहिद का भी उनके जैसा ही काम करने और सोचने का अपना एक अलग तरीका है। उन्होंने कहा कि दोनों के दृष्टिकोण हमेशा मेल नहीं खाते, लेकिन उनका मानना है कि यह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उल्लेख किया कि अगर भविष्य में उनकी संवेदनाएं मेल खाती हैं, तो वे निश्चित रूप से फिर से सहयोग करेंगे। निर्देशक ने दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर कहा कि इस स्थिति ने उनके बंधन को प्रभावित नहीं किया है। उन्होंने साझा किया कि शाहिद हमेशा उन्हें प्यार और सम्मान के साथ बधाई देते हैं, और वह अभिनेता को लेकर भी ऐसा ही महसूस करते हैं। भूल भुलैया 3 निर्देशक ने आगे कहा कि जब वे फिर से साथ आएंगे, तो बिनी किसी शंका के एक बेहतरीन फिल्म बनाएंगे।

### शाहिद और अनीस बज्मी का वर्क फंट

बात करें, शाहिद कपूर के वर्क फंट की, तो उनकी आगामी फिल्म देवा है, जो प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता रोशन एंड्रयूज द्वारा निर्देशित एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म है। ये फिल्म 14 फरवरी,

2025 को वॉलेंटॉइन डे पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में पूजा हेगड़े, पावेल गुलाटी और कुब्जा सैत भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा शाहिद कपूर अश्वथामा-2 सागा कटीन्यूजमें काम करने वाले हैं। वहीं, बात करें अनीस बज्मी की, तो कहा जा रहा है कि वो नो एंट्री के सीकल की तैयारियां कर रहे हैं।

